knlslive@gmail.com

# युखाखाखाद सी एकाशिक 🛡

वर्ष :- 03 अंक :- 158 मुरादाबाद, 27 September 2023 (Wednesday)

UPBIL/2021/83001 पृष्ठ:- 08 मूल्य: 3.00 रुपरे

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, अलीगढ, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

### संक्षिप्त समाचार जहां भी नियुक्ति मिले वहां की स्थानीय भाषा सीखे उम्मीदवारों से बोलीं निर्मला

सीतारमण



तमिलनाडु दौरे पर हैं। यहां उन्होंने रोजगार मेले में शिरकत की। केंद्र के रोजगार मेले का जिक्र करते हुए कहा, अब तक लगभग 10 लाख लोगों को नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं।मंगलवार को रोजगार मेले में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिरकत की रोजगार मेले का जिक्र करते हुए सीतारमण ने कहा कि अक्तूबर 2022 से इसका आयोजन हो रहा है। अब तक लगभग 10 लाख लोगों को नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा, यदि किसी ऐसे उम्मीदवार को नौकरी की पेशकश दी जाती है,जो बैंक में सेवारत होगा और सीधे संपर्क में होगा। उसे प्रतिदिन ग्राहकों के साथ स्थानीय भाषा सीखनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री द्वारा देशभर मे **|51,000 नियुक्ति आदेश दिए** जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि तमिलनाडु से 553 लोगों को नौकरी के प्रस्ताव मिल रहे हैं। रोजगार मेले पर बोलते हुए मंत्री सीतारमण ने कहा, अन्य राज्यो से चयनित उम्मीदवार, वहां की स्थानीय भाषा सीखें,जहां उन्हे तैनात किया गया है। इसी दौरान सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि जिन उम्मीदवारों को नौकरी की पेशकश मिली है, उन्हें भी अपना कौशल बढ़ाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र द्वारा शुरू की गई योजनाओं को लोगों की सेवा में कैसे लाया जाए। तिमलनाडु में उम्मीदवारों को प्रस्तुत किए जा रहे 553 ऑफर लिटर में से, सीतारमण ने कार्यक्रम में 156 लोगों को नियुक्ति आदेश दिए। प्रस्ताव पत्र राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों दोनो को प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इससे पहले, हवाईअड्डे पर पहुंचते ही भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने सीतारमण का गर्मजोशी से

#### ताज़ा खबरों के लिए देखे www.knlslive.com

स्वागत किया।

## गोरखपुर में सीएम योगी: एमएमएमयूटी में प्रशासनिक भवन का किया लोकार्पण,बोले-

## विकास में तकनीकी संस्थाओं का रोल अहम

अब पराने प्रशासनिक भवन में फिलहाल फार्मेसी की पढ़ाई होगी। फार्मेसी के लिए नया भवन बन रहा है। नया भवन बन जाने के बाद वहां फार्मेसी विभाग को शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद विवि प्रशासन अपनी सुविधानुसार इस भवन में नए कोर्स शुरू कर सकता है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश व प्रदेश के विकास में तकनीकी संस्थाओं का योगदान अहम हैं। समाज को इस तकनीक का लाभ देने के लिए तकनीकी संस्थाओं का आगे आना होगा। वे मंगलवार को मदनमोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में निर्मित आधुनिक प्रशासनिक भवन के लोकार्पण अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने मदन मोहन विश्वविद्यालय में नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इसके



निकल गए। बता दें कि सीएम योगी एमएमएमयूटी में 11.86 थे।प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी करोड़ की लागत से तैयार हुए नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किए। कुलपति प्रो. जेपी पाण्डेय एक दिन पहले से पूरी तैयारियां करवा दी थी। एमएमएमयूटी के प्रशासनिक भवन की टॉप फ्लोर पर कुलपित कार्यालय और प्रति के अलावा लिफ्ट, बिजली और

है। उसी फ्लोर पर सामने दो सौ लोगों के बैठने के लिए हॉल तैयार किया गया है। प्रथम तल पर रजिस्ट्रार कार्यालय के साथ ही सभी संकायाध्यक्षों के कार्यालय होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर दाहिने तरफ परीक्षा विभाग और बाएं तरह वित्त विभाग होगा। बेसमेंट में पार्किंग

पुराने प्रशासनिक भवन में फिलहाल फार्मेसी की पढ़ाई होगी। फार्मेसी के लिए नया भवन बन रहा है। नया भवन बन जाने के बाद वहां फार्मेसी विभाग को शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद विवि प्रशासन अपनी सुविधानुसार इस भवन में नए कोर्स शुरू कर

#### माथे पर पति के नाम का सिंदूर... पर एक हजार रुपये के लिए बनीं विधवा, सत्यापन में खुली पोल

कानपुर में शादीशुदा होने के बाद ने जब सत्यापन शुरू किया तो भी 24 महिलाओं के विधवा पेंशन उठा ली। जिला प्रोबेशन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023 का सत्यापन कराया तो पोल खुल गई। सभी की पेंशन रोक दी गई है। विभाग नोटिस जारी कर वसूली की तैयारी में है।शादीशुदा होने के बाद भी महिलाओं के विधवा पेंशन उठाने का मामला सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2023 के सत्यापन में ऐसी 24 महिलाएं सामने आई हैं, जिनके माथे पर तो पति के नाम एक हजार रुपये पाने के लिए विधवा का चोला ओढने से गरेज नहीं किया। ये वो महिलाएं हैं, जिन्होंने पहली पति की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली है। अब सत्यापन में पोल खुलने के बाद इनकी पेंशन बंद कर वसूली की तैयारी है। दअरसल, पति की मृत्यु के बाद सरकार की तरफ से निराश्रित महिला योजना के तहत विधवा को एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

पता चला कि अलग-अलग ब्लॉक की 24 महिलाएं दिए पते पर नहीं रहतीं। पूछताछ में पता चला कि दूसरी शादी करने के बाद पति के घर में रहती हैं। टीम नए पते पर पहुंची तो मामला सामने आया। महिलाओं ने बताया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि पेंशन बंद कराने के लिए आवेदन करना

#### पांच हजार अन्य का सिंदूर लगा है लेकिन हर माह विधवाओं का नहीं मिला पता

सत्यापन में पांच हजार अन्य विधवाओं का भी पता नहीं मिला है। इन महिलाओं ने अपना आधार भी लिंक नहीं कराया है। विभाग ने आशंका जताई है कि हो सकता

इनमें भी कई ऐसी महिलाएं हों जो फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले रही हों। केस = एक-बिल्हौर ब्लॉक की दीपा कुमारी ने पहले वर्तमान में जिले में 58 हजार पित की मृत्यु के छह माह बाद महिलाएं इस योजना का लाभ ले शिवओम से शादी कर ली थी। रहीं हैं। प्रोबेशन विभाग की टीम शादी के बाद भी विधवा पेंशन

योजना का लाभ लेती रहीं। टीम जब सत्यापन करने पहुंची तो हकीकत सामने आई। विभाग ने अब उनकी पेंशन पर रोक लगा दी है। केस= दो भीतरगांव ब्लॉक की रहने वाली प्रगति सिंह के पति की मृत्यु दो वर्ष पहले हो गई थी। परिवार के दबाव के कारण उन्हें दुसरी शादी करनी पड़ी।शादी हुए करीब एक वर्ष हो गए, लेकिन विधवा पेंशन इसके बाद भी उठा रहीं थीं। सत्यापन के बाद अब उनकी भी पेंशन रोक दी गई है। इतनी महिलाएं उठा रहीं थीं फर्जी तरीके से पेंशन घाटमपुर = 2, पतारा=4, सरसौल=4, चौबेपुर = 3, बिधनू = 5, भीतरगांव = 2, शिवराजपुर = 1, कल्याणपुर = 1, बिल्हौर = 2 वित्तीय वर्ष 2023 का सत्यापन कराया गया था। इसमें 24 महिलाएं ऐसी सामने आईं थीं, जिन्होंने पहले पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली थी। सभी की पेंशन पर रोक लगा दी गई है। सभी को नोटिस जारी कर धनराशि की वसूली की जाएगी। - जयदीप, जिला प्रोबेशन अधिकारी

## मनमोहन सिंह का 91वां जन्मदिन: PM मोदी ने दी

#### कनेक्ट प्रोग्राम: पीएम बोले- जी20 की सफलता पूरे देश की, भारत की स्पीड का जुवाब नहीं ने कहा कि युवा जिससे जुड़ जाते

पीएम मोदी ने कहा कि 23 अगस्त की तारीख पूरे देश के लिए अंतरिक्ष दिवस के रूप में अमर हुई है। चद्रयान 3 को सफलता के साथ के बाद भारत के वैज्ञानिकों का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। पीएम ने कहा कि भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन जी 20 का सदस्य बना। इस पीएम मोदी ने यह भी कहा कि रोजगार मेला लगाकर एक लाख लोगों को रोजगार दिया गया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जी 20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के दौरान छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि जी 20 सम्मेलन की सफलता पूरे देश की है। इस सम्मेलन के दौरान दुनिया के लिए बड़े-बड़े फैसले लिए गए। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत की स्पीड का जवाब नहीं है। 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई।



भारत में सऊदी अरब 100 बिलियन डॉलर निवेश करने वाला है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 23 अगस्त की तारीख पूरे देश के लिए अंतरिक्ष दिवस के रूप में अमर हुई है। चंद्रयान 3 की

के वैज्ञानिकों का लोहा पूरी दुनिया ने माना है।पीएम ने कहा कि भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन जी 20 का सदस्य बना। इस पीएम मोदी ने यह भी कहा कि रोजगार मेला लगाकर एक लाख लोगों को रोजगार दिया गया।पीएम

हैं वह सफल हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले तीस दिन पर नजर डालें तो नए भारत के तेज का पता चलता है।जी-20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 30 दिनों में भारत की कूटनीति नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। जी-20 से पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। भारत के प्रयासों से ब्रिक्स समुदाय में छह नए देशों को शामिल किया गया। आने मुझे सभी अच्छे कर्म करने के लिए चुना है। जी-20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले मैंने इंडोनेशिया में विश्व के कई नेताओं के साथ बैठक की थी। उसके बाद जी-20 में दुनिया के लिए बड़े फैसले लिए गए। आज के ध्रुवीकृत अंतरराष्ट्रीय माहौल के बीच इतने सारे देशों को एक मंच पर लाना कोई छोटी बात नहीं है।

## शुभकामनाएं, कांग्रेसियों ने बांधे तारीफों के पुल

मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि वह एक ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने राजनीति में सादगी और गरिमा का उदाहरण पेश किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने उनकी प्रशंसा कर कहा कि वह एक सच्चे प्रधानमंत्री थे, जिनके काम उनके शब्दों से ज्यादा बोलते थे। बता दें, 91 वर्षीय मनमोहन सिंह ने साल 2004 से 2014 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का नेतृत्व किया था। वह 1991-96 के दौरान पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में भारत के वित्त मंत्री भी रहे थे।

लंबी उम्र की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन पर बधाई दी। मोदी



ने कहा कि मनमोहन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।

#### सादगी और गरिमा का

#### उदाहरण

मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि वह एक ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने राजनीति में सादगी और गरिमा का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह एक सच्चे राजनेता प्रधानमंत्री हैं, जिनके काम शब्दों से ज्यादा बोलते थे। हम उनके योगदान के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, %उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और उनके लंबे जीवन की कामना करता हूं।'

राष्ट्र निर्माण में मनमोहन

### संजय गांधी अस्पताल प्रकरण पर बोलीं स्मृति ईरानी, अपना मुनाफा बंद होने पर रो रहे गांधी खानदान के लोग

अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किए जाने को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बयान दिया है। उन्होंने गांधी परिवार को लेकर कहा कि उन्हें एक महिला की जान की कोई परवाह नहीं है।केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने पर किए जा रहे सत्याग्रह पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई। मैं अचंभित हूं कि गांधी खानदान की ओर से चलाए जा रहे अस्पताल में एक महिला की मौत होती है। ऐसे में उसके परिजनों को सहारा



देने और आरोपी पर कार्यवाही की जगह वो अपना मुनाफा बंद होने पर रो रहे हैं। उनकी नजरों में एक महिला की जान की कोई कीमत

को लखनऊ में मीडियाकर्मियों से बातचीत में ये बयान दिया। इसके पहले, उन्होंने मंगलवार को में नियुक्ति पत्र वितरण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं वो लोग आम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें। तकनीकी के इस दौर में आम आदमी को इस डेस्क से दूसरी डेस्क भटकना न पड़े। हाल में हुए जी 20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कर दिखाया है कि किस तरह हर स्तर के अधिकारी, कर्मचारी को साथ लेकर चला जाए।आज यहां डाक विभाग ने भी कई विभागों के समन्वय से यह कार्यक्रम किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी, आम आदमी से सरलता से बर्ताव करें। नागरिक को मालिक और खुद को

लखनऊ में आयोजित रोजगार मेले

सेवक समझें। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो प्राइवेट नौकरी छोड़कर देश सेवा के लिए आए हैं। ऐसे में भारत का उज्जवल भविष्य आप पर निर्भर करता है। नए भारत में महिलाएं उत्साह से भरी हुई हैं- केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भविष्य के निर्माता अपनी सार्थकता, सहजता और सरलता से आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि गणेश वंदना के समय, पीएम मोदी ने नए संसद भवन में 33 फीसदी महिला आरक्षण बिल पास कराकर एक नए भारत की शुरुवात की है। आज महिला उत्साह और उमंग से भरी हुई है। देश में हर वर्ग बढ़ रहा है पीएम मोदी के नेतृत्व में-विधायक जय देवी ने कहा कि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र और वर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। विधायक नीरज बोरा ने कहा कि पिछले 9 साल में देश ने काफी प्रगति की। भारत विश्व की पांच बड़ी अर्थव्यवस्था के शामिल हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि युवा उद्यमी बनें, वह रोजगार देने वाला बनें। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में काफी विकास कार्य किए हैं। वहां की तस्वीर बदली है। सीएम योगी ने प्रदेश के बारे में लोगों की अवधारणा बदली है। जहां पहले यहां निवेशक आने से कतराते थे वहीं यहां निवेशक अब आने के लिए आतुर हैं।

#### सिंह के योगदान की सराहना

वहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी राष्ट्र निर्माण में मनमोहन सिंह के योगदान की सराहना की। उन्होंने सोशल माडिया एक्स पर कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की ईमानदारी, राष्ट्र निर्माण और जनता के आर्थिक उत्थान के प्रति अट्ट प्रतिबद्धता हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा रहेगी।' उन्होंने आगे कहा कि जन्मदिन पर उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं।

#### धैर्य और विनम्रता का पाठ सिखाया

पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने भी इस अवसर पर मनमोहन सिंह को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। एक नेता के रूप में, उन्होंने राजनीति में धैर्य और विनम्रता का पाठ सिखाया। एक प्रधानमंत्री के रूप में, उनकी ईमानदारी, साहस, दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता ने देश को आत्म-विश्वास और गर्व के साथ 21वीं सदी में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। वाड्रा ने कहा कि उनके लिए हमेशा ही सम्मान रहेगा।

#### देश के विकास में सिंह के योगदान की सराहना

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आज डॉ. मनमोहन सिंह 91 साल के हो गए। वह हमेशा अनुग्रह, संयम, विनम्रता और गरिमा का प्रतीक रहे हैं। वहीं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधारों का वास्तुकार बताया। इसके अलावा, कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और देश के विकास में उनके योगदान की सराहना की।

## संपादकीय Editorial

#### **Employment questions**

Unemployment and inflation are the most important national issues in India. The irony is that most mandates are not decided on these issues. Nowadays there is a lot of talk about women's reservation. General reservation is also such a sensitive issue Employment is more important than reservation, so that women do not remain 'unpaid workers' from generation to generation and the average Indian can become self-reliant. Nowadays, whenever the Prime Minister of the country Modi lays the foundation stone of a cricket stadium or inaugurates 'Yashobhoomi' event complex or goes to any exhibition, he claims to increase employment everywhere. Big highways and expressways are also being built in the country, obviously they will also generate employment. In parallel with their construction, other economic activities also increase. Of course, the growth rate of our economy is around 8 percent, but its average per capita growth is only around 4.5 percent After the Corona global pandemic, India' economy has made a very fast and positive comeback, hence in 2021-22, not only was the GDP about Rs 150 lakh crore and was also 9 percent more than last year, but it was also at the pre-Corona level. Also crossed The economics of GDP are somewha different, which the common man cannot understand, hence there are deep contradictions between the rate of economic growth and general employment. Many unanswered questions also remain implicit Political powers do not answer them.

Employment is another issue that is not being fully addressed despite all the positive economic growth. There are different interpretations and stories of employment job and self-employment in our country. I is clear from the data of various reports of the Government of India that there has been a return of flexibility or employment in the job market. Apart from governments bumper employment opportunities are also being advertised in the private sector, but these opportunities for women and young graduates have lagged behind the overall economy. After the Corona epidemic, the rate of male and female workers has increased but this employment data has been in the headlines only superficially. If working conditions have improved, then apparently the unemployment rate should go down, bu even today the national rate is swinging between 7-8 percent. The unemployment rate in 2021-22 was about 6.6 percent, which was about 2 percent less than in 2019-20, but female employment was showing an increase. What kind of anomaly was this? A report suggests that there has been a structural decline in women's employment In contradiction to this, it was said that the self-employment trends of women have increased. This self-employment was 'unpaid' and an option to 'quit' because of the poor conditions of jobs and employment in the market. It was also concluded that the monthly income of women has increased compared to 2019-20 and 2020-21. This should also be seen in the context of inflation Interestingly, the monthly income of Rs 12089 in 2021-22 was about 2 percent less than the average monthly income of 2017-18. How is this possible? Does the person's income increase or decrease from year to year? To increase the monthly income of women

in different states, governments of political parties make their financial policies accordingly. Some announce to distribute Rs 1500, some Rs 2000 and Rs 2500 for free. It cannot be called regular income, because sometimes the free money is received and sometimes the governments forget it. Despite such lollipops, the pressure to increase women's participation in the country's labor force remains, but it is not happening. Youth unemployment is a worrying concern, which sometimes takes the form of anarchy.

## Shreyas Iyer: Teammates compare him with Virender Sehwag, his bat runs at the number three position of Virat Kohli.

As far as Shreyas Iyer's batting order is concerned, whenever he has got a chance to bat at number three position, he has scored well. His score card at number three position is something like this: 9, 88, 65, 54, 63, 44, 80, 49, 82, 3, 105 runs i.e. Shreyas Iyer also likes to play in this position. Till now there was criticism regarding the selection of Shreyas Iyer who was included in the Cricket World Cup team. Questions were being raised on his fitness, but Shreyas Iyer has silenced the critics by scoring a century against Australia in Indore, but an interesting fact here is that Shreyas Iyer batted as the number three batsman in Indore and scored 90 balls. But scored 105 runs. Also, was the man of the match. In earlier matches, Shreyas was coming to bat at number four or five. Is the number three position a good luck charm for batsmen? Because currently India's great batsman Virat Kohli bats in this position. Everyone knows what his records are? Will Shreyas Iyer get a chance to bat further at number three? This question is a bit complicated. A look at his journey from Under-19 to Team India till now - Shreyas Iyer, who is going to celebrate his 29th birthday on 6th December, had joined Team India from Under-19. Although he is originally from Tamil Nadu, he learned A, B, C, D of cricket in Mumbai. Former Indian player Praveen Amre had recognized the talent of Shreyas Iyer. Under the supervision of Praveen Amre, Shreyas achieved excellence in batting. Shreyas Iyer's early fellow cricketers used to compare him with explosive batsman Virender Sehwag, because Shreyas is also a player who takes risks and scores runs very fast. Shreyas also captains Delhi Capitals in the Indian Premier League (IPL). However, due to injuries recently he has been away from cricket and Team India. Iyer's score at number 3 - As far as Shreyas Iyer's batting order is concerned, whenever he has got a chance to bat at number three position, he has scored well. His score card at number three position is something like this: 9, 88, 65, 54, 63, 44, 80, 49, 82, 3, 105 runs i.e. Shreyas Iyer also likes to play in this position. However, the problem facing Shreyas Iyer is that he will be able to play in this position in the World Cup only if Virat Kohli is rested. It seems difficult for this to happen in the World Cup. As far as Shreyas Iyer's international cricket records are concerned, he represents Team India in all three formats of cricket, Test, ODI and T-20. First of all, in November 2017, he played his first T-20 match against New Zealand. India won that match. However, Shreyas Iyer did not get a chance to bat. The very next month in December 2017, he was also included in the ODI team. In his first ODI against Sri Lanka, Shreyas scored 9 runs while playing at number 3 position, but Shreyas Iyer had to wait a long time to join the Test team. He was included in the Test squad against New Zealand in November 2021. In his very first Test match, Shreyas Iyer played a century inning of 105 runs and in the second innings also he scored 65 runs. Iyer has played so many matches - Shreyas Iyer has so far represented India in 10 Tests, 46 ODIs and 49 T20s. He has scored one century, 666 runs with 5 half-centuries in Test, three centuries in 46 matches in ODI, 1753 runs with 14 half-centuries and 1043 runs with 7 half-centuries in T-20. By the way, Shreyas Iyer can also bowl offbreak and legbreak googly with his straight hand. It is a different matter that he has not got many opportunities to bowl and he has not been able to take any wicket till now. Probably, considering Shreyas' good average of 46.13 and strike rate of 97.55 in ODIs, he has been given a chance in the World Cup team. What wonders will this batsman be able to do for Team India and how much chance will he get in the World Cup? This will be known soon, but the way Shreyas Iyer's form has also returned, it is a good news for Team India. Now most of the players of the team have returned to form and are fully prepared for the World Cup.

## Every visitor, not a tourist-1

One week passes every year in the culture of tourism, but in the understanding of this industry it is not a journey. If tourism starts fixing itself a few days, a few months in a year, then we will just keep doing gimmicks on its platform. The soul of tourism encompasses 24-hour experiences, activities and labour. The tourist understands the message of every country, every region and every place. If the tourist is on an international journey, then the purpose of inviting him to India becomes bigger. In such a situation, Himachal has to first make itself a destination in the country and then fulfill India's dream on the international platform. Of course, there have been some quantitative achievements in this regard and due to which international tourists are coming to the state, but efforts should be made to make the reasons for coming more positive and to take the category of tourists to the high end. Along with practical research on tourism in Himachal, commercial review of its trends is necessary. This is not just a bouquet of promotional material or fixed attractions, but a system of prioritizing the needs of the tourism sector. Even though the picture of tourism in Himachal is happy in the statistics, the economy derived from it is not getting the required strength. By June this year, the number of tourism arrivals in Himachal has reached one crore, which may exceed the peak of 196 lakh in 2017. The thing to note is that every person coming to Himachal is being counted as a tourist, whereas unwanted elements are included in this number.

Obviously, if every arrival is counted for tourism, then the desired economy cannot be estimated from this industry. Take Goa for example, where only 2.5 lakh foreign tourists came from December to January and only 81 lakh tourists of all types are expected in the year. On the other hand, so far in 2022-23, 348 charter flights have landed at Goa's international airport through which 1.4 lakh tourists arrived. All these tourists represent a particularly influential category, which makes Goa a favorite destination for high-end tourists. There is no such strength in the number of tourists coming to Himachal till June. The budget of tourists coming to Goa is many times higher than that of tourists coming to Himachal because they spend on higher level facilities during their longer stay. The recognition of tourists and tourism in Himachal is currently at a low level. For example, 80 percent of the tourists come as a stopover on a religious journey and their gatherings are such a moonlight affair for a few days, which is less than the daily expenditure of an ordinary Himachali. In the langar tradition of Chintpurni or other religious places, free food is often available to religious tourists and accommodation arrangements are also made without any expense. Along with this, in the tradition of truck and tractor tourism, a lot of groups come, but on a tour of one or two days, this is a caravan which also takes its kitchen with it. In such a situation, by bearing the burden of 80 percent tourists, Himachal is only collecting the figures of Shraddha in tourism and not making any significant contribution in the economy. Of course, there may be a boom in temple income or business in religious towns, but according to statistics, religious tourism is not being exploited. For this, there should be a separate policy, management and original thinking of temple tourism. There is a need to promote gift centers and gift and prasad industry along with temples. Obviously, if every arrival is counted for tourism, then the desired economy cannot be estimated from this industry. Take Goa for example, where only 2.5 lakh foreign tourists came from December to January and only 81 lakh tourists of all types are expected in the year. On the other hand, so far in 2022-23, 348 charter flights have landed at Goa's international airport through which 1.4 lakh tourists arrived. All these tourists represent a particularly influential category, which makes Goa a favorite destination for high-end tourists. There is no such strength in the number of tourists coming to Himachal till June. The budget of tourists coming to Goa is many times higher than that of tourists coming to Himachal because they spend on higher level facilities during their longer stay. The recognition of tourists and tourism in Himachal is currently at a low level. For example, 80 percent of the tourists come as a stopover on a religious journey and their gatherings are such a moonlight affair for a few days, which is less than the daily expenditure of an ordinary Himachali. In the langar tradition of Chintpurni or other religious places, free food is often available to religious tourists and accommodation arrangements are also made without any expense. Along with this, in the tradition of truck and tractor tourism, a lot of groups come, but on a tour of one or two days, this is a caravan which also takes its kitchen with it. In such a situation, by bearing the burden of 80 percent tourists, Himachal is only collecting the figures of Shraddha in tourism and not making any significant contribution in the economy.

## Why tuition-coaching industry is flourishing, flaws in educationexamination system are preparing fertile ground for them

The steering group of the curriculum prepared by NCERT in the year 2005 was also headed by Prof. It was Yashpal who did it. Then many changes were made in the structure, content and method of teaching and examination system of books. With time, the number of participants in various examinations increased and the tension of competition also increased rapidly. The condition of government schools went from bad to worse. This is from 1991. Well-known writer RK Narayan gave a historic speech focusing on education in the Rajya Sabha. The theme of the speech was to reduce the burden of school bags on students. It discussed the unnecessary stress placed on students due to the extended curriculum. That statement was discussed nationwide. Government of India, famous scientist and educationist Prof. Under the chairmanship of Yashpal, a committee was formed to reduce the burden of school bags which submitted its report in 1993. The most important recommendation in it was that more stress than the burden of the bag comes from not being able to understand what was taught. The committee had also enumerated the reasons for the same.

www.knlslive.com

## परिवहन विभाग अनाधिकृत संचालित वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करें-मण्डलायुक्त

मुरादाबाद - माननीय मुख्यमंत्री जी के सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण बैठक एवं कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों, राजस्व कार्यों के संबंध हेतु आयुक्त श्री आन्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मण्डलीय समीक्षा बैठक कमिश्नरी सभागार में सम्पन्न हुई। कमिश्नर ने निराश्रित गौवंश को संरक्षित करने के संबंध में जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को गम्भीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि अभियान चलाकर अतिक्रमण भूमि का सही से पता लगवायें। बैठक में किमश्नर ने एस0ओ0सी0 को निर्देश दिये चकबंदी के केसों का गम्भीरता से लेकर समय से निस्तारण करें। वाहन कर माल तथा यात्री कर में बिजनौर की स्थिति खराब होने पर सुधार करने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने आर0टी0ओ0 को निर्देश दिये कि अनाधिकृत संचालित वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करें तथा प्रवर्तन की कार्यवाही के तहत हाईवे पर विशेष ध्यान दें। बैठक में किमश्नर ने आर0टी0ओ0 को निर्देश दिए कि बिना रिफलेक्टर के कोई टैउक्र्टर - ट्राली न हों एवं रिफलेक्टर सही जगह लगा हो इसको सुनिश्चित करवाए। उन्होंने कहा कि वाहनों में ओवरलोडिंग नही होनी चाहिए तथा निरन्तर औचक निरीक्षण कर ओवरलोडिंग पर ध्यान दिया जाये और किसी भी तरीके का सिडीकेंट नहीं बनना चाहिए। बैठक में किमश्नर ने उपस्थित सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत विभाग जो एफआईआर कर रहें है उसकी गम्भीरता पूर्वक समीक्षा करें तथा विद्युत विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि एफ0आई0आर0 के बजाय वसूली पर ज्यादा ध्यान दें। खनन अधिकारी को किमश्नर ने प्रवर्तन बढ़ाने पर निर्देश दिए तथा कहा कि निदयों में किसी भी तरह का अवैध खनन न हों इस पर ध्यान दिया जाये। उन्होंने अमरोहा तथा सम्भल के खनन विभाग के संबंधित अधिकारी को अवैध खनन की ज्यादा शिकायतें आने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि एक अभियान चलाकर बिना नम्बर प्लेट वालों पर कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। रामपुर के आबकारी विभाग के संबंधित अधिकारी को कर संग्रह की स्थिति खराब होने पर ठीक से समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में मण्डलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24, धारा 80 एवं धारा 116 के वादों में हो रही पेन्डेन्सी पर विशेष ध्यान देकर समीक्षा करें तथा संबंधित अधिकारियों की निरन्तर मानीटरिंग करते रहें। बैठक में मण्डलायुक्त ने कहा कि भू-माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाकर कार्यवाही की जाये।आई0जी0आर0एस0 के संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय के अन्दर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस के दिन ही समाधान हों, इसको सभी अधिकारी गम्भीरता से लें। मण्डलायुक्त ने सभी उपस्थित मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि उचित दर दुकानों के निर्माण पर काम करें तथा नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अपशिष्ट प्रबन्धन में रामपुर की स्थिति खराब होने पर सही करने के निर्देश दिये। पी0एम0 आवास योजना शहरी में सभी सी0डी0ओ0 को आंकड़े सही से पेश करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़कों पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण न हो इसको सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने उपस्थित सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिये कि डेंगू के विरुद्ध अभियान चलवाये तथा ताजा पानी कहीं न जमा हो इसको सुनिश्चित करवायें। दवाओं की उपलब्धता पर मण्डलायुक्त ने सभी डीएम एवं सीडीओ को विशेष ध्यान देने एवं सत्यापन करवाने के निर्देश दिये। टीकाकरण की स्थिति खराब होने पर मण्डलायुक्त ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निरन्तर सत्यापन करके स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए। राज्य औद्यानिक मिशन के तहत उद्यान विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि बागों की मैपिंग अच्छे से करवाऐ और बागों को किसी भी स्थिति में कटने न दे इसको सुनिश्चित करवायें। जिन जगह पर बाग कटे हैं उनकी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। श्रमिक पंजीयन के संबंध में किमश्नर ने सम्भल एवं बिजनौर के संबंधित अधिकारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्थिति सुधारने के निर्देश दिये। आई0जी0आर0एस0 के संबंध में मण्डलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आई0जी0आर0एस0 का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण समयार्नगत करना सुनिश्चित करें तथा आवेदकों का फीडबैक भी समय-समय पर लेते रहें। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि जर्जर तार तथा टेढ़े खम्भों का सत्यापन समय से करवाकर विसंगतियों को दूर किया जाए। पी0एम0 किसान सम्मान निधि के अर्न्तगत संबंधित अधिकारी को निरन्तर सत्यापन करके प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के संबंध में मण्डलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि मानक के अनुरुप सेन्टरों पर सुविधा सुनिश्चित करवायी जाये। उन्होंने उपस्थिति सभी सी0एम0ओ0 तथा जिला कार्यऋम अधिकारियों को निर्देश दिये कि आंगनवाडी के भ्रमण को 100 प्रतिशत सुनिश्चित करवाया जाये इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। किमश्नर ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिऐ कि ग्राम पंचायतों में पुस्तकालयों का जो लक्ष्य होता है उसको सही तरीके से पूर्ण करवाने की कोशिश की जाये तथा उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय एवं नक्षत्र शालाओं के संचालन में विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने कहा कि अधिकारी कोशिश को लिक्षा करें कि प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र⁄ छात्राओं की लेखन क्षमता, पाठन क्षमता, गुणा भाग ( गणित ) की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रुपरेखा तैयार की जाए। मण्डलायुक्त द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समस्त सरकारी भूमि का चिन्हाकंन करें व चरागाह की जमीनों पर पशुओं हेतु नेपियर घास की व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में यह निर्देश दिए गए की हर स्तर पर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को दवाइयों के वेयर हाउस का निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने राशन वितरण के संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अभियान चलवाकर कार्य करवायें तथा नियमित जांच हेतु संबंधित अधिकारियों को लगायें। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि गन्ना मूल्य का भुगतान तय समय से सुनिश्चित करवाया जाये। पीएम आवास योजना के अर्नागत मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि पेन्डेन्सी को कम किया जाये और कोशिश की जाए कि कोई पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहें। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिये कि जो आशा वर्कर काम नही कर रही है उन पर कार्यवाही की जाए तथा आशा वर्कर की नियमित विजिट को सुनिश्चित करवाया जाये। समीक्षा बैठक में मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन विभागों में जनता का आना जाना रहता है वहां शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराये। आयुक्त ने मण्डलीय अधिकारीगण को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र में शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भौतिक सत्यापन मौके पर जाकर फील्ड में देखें तथा सभी अधिकारी टीम भावना एवं समन्वय के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर विकास कार्यो की सतत् मानीटरिंग एवं सुपरविजन करने के भी निर्देश दिये। 👚 बैठक में जिलाधिकारी मुरादाबाद श्री मानवेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी अमरोहा राजेश कुमार त्यागी, जिलाधिकारी सम्भल मनीश बंसल, जिलाधिकारी बिजनौर अंकित कुमार अग्रवाल, अपर आयुक्त प्रशासन प्रथम ब्रजेश सिंह, उपायुक्त प्रशासन गजेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त, सीडीओ मुरादाबाद सुमित यादव सिंहत सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, ए०डी० हेल्थ, मुख्य चिकित्साधिकारीगण, संयुक्त निदेशक कृषि, डब्ल्यूएचओ एवं यूनिसेफ के प्रतिनिधि सहित एस०ई० सिंचाई, विद्युत, लोक निर्माण विभाग, उप निदेशक समाज कल्याण, उप निदेशक पूर्ति, उप निदेशक उद्यान, उप निदेशक प्रोबेशन, उप निदेशक पंचायतीराज, पशुपालन, सेतु, आईसीडीएस आदि विभागों के मण्डलीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

## रिश्वत लेते श्रम प्रवर्तन अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा, विजिलेंस टीम ने पचास हजार बरामद किए

ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। इसके बाद विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी से पचास हजार रुपये बरामद किए। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुभाष भारती का पट्राल पप संचालक सं 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किय गया है। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालक से शिकायतों का निस्तारण करने के लिए रिश्वत मांगी थी। आरोपी को विजिलेंस टीम ने बरेली ले गई है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस केस दर्ज कर लिया गया है। विजिलेंस एएसपी अरविंद कुमार यादव ने बताया कि मूंढापांडे थाना क्षेत्र में लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर स्थित रिलायंस वीपी मोबिलिटी लिमिटेड नाम से पेट्रोल पंप है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुभाष भारती ने शिकायत मिलने पर पेट्रोप पंप का निरीक्षण किया था। इसमें कई खामियां पाए जाने पर रिपोर्ट बनाकर आपत्तियां लगा दी गई थी। इन आपत्तियां का निस्तारण



से 50 हजार की रिश्वत मांगी गई

आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता से कहा कि वह मांगे गए पैसे देते हैं तो रिपोर्ट खत्म कर दी जाएगी। पंप संचालक ने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम से की थी। इसके बाद यह कार्रवाई हुई। इससे पहले अगस्त में बिजली विभाग के क्लर्क शरद भटनागर को तीस हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा था। इस मामले में कटघर थाने में केस दर्ज किया गया था। गलशहीद के भूड़े का चौराहा निवासी सिराज ने एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को बताया कि चचेरे भाई तालिब हुसैन दिल्ली में रहकर दिए टीम ने उसे पकड़ लिया।

काम करते हैं। उनका परिवार शहर में ही रहता है। विभाग की टीम ने उनके घर से बिजली चोरी पकड़ी थी। इसके कागजात लेकर सिराज शिवपुरी स्थित बिजली घर के क्लर्क शरद भटनागर से मिले थे। तब क्लर्क ने उनसे कहा था कि बीस हजार रुपये की रसीद कटेगी और दस हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे। आरोपी क्लर्क ने तीस हजार रुपये मांगे थे। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तीस हजार रुपये के नोटों पर पाउडर लगाकर सिराज को दे दिए थे। उन्होंने जैसे ही शिवपुरी बिजली घर में जाकर क्लर्क को रुपये

#### करने के लिए पेट्रोल पंप संचालक रुपयों को बनाया निवाला: लॉकर में रखे 18 लाख चट कर गई दीमक, महिला के आरोपों के बाद बैंक में हड़कंप

मुरादाबाद - लॉकर में रखे पैसों में दीमक लगने की जानकारी के बाद बैंक अधिकारियों ने शिकायत करने वाली महिला से संपर्क किया लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। उनका कहना है कि आवश्यकता पकड़े पर पुलिस की मदद ली जाएगी। मुरादाबाद के बैंक लॉकर में रखे 18 लाख रुपये को दीमक खा गई। इसकी

जानकारी बैंक अधिकारियों हड़कंप मच गया है। संपर्क करने की कोशिश कर नहीं हो पा रहा है। जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा की रामगंगा सामने आया है।महिला का लंबे समय से 18 लाख रुपये



और पुलिस को मिलने पर अधिकारी अब महिला से रही है लेकिन उससे संपर्क के मुताबिक मुरादाबाद स्थित विहार शाखा में यह मामला आरोप था कि बैंक लॉकर में के नोट रखे थे। जब लॉकर

का ताला खोला गया तो नोट में दीमक लगकर खराब हो गई थी। इसकी शिकायत शाखा प्रबंधक से की गई। आशियाना निवासी अलका पाठक का आरोप है कि उन्होंने अक्टूबर 2022 में बेटी की शादी के लिए यह नकदी लॉकर में रखी थी। बैंक की सूचना के बाद जब वह एग्रीमेंट रिन्यूअल के लिए गई तो उन्होंने लॉकर खोला तो वह अवाक रह गई। पूरी नकदी को दीमक चट कर गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर बैंक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उनका कहना है कि लॉकर में पैसों ने नहीं रखा जा सकता। इतनी बड़ी नकदी कैसे रखी इसकी जांच की जाएगी।आवश्यता पड़ने पर पुलिस की भी मदद की जाएगी।

## मुरादाबाद में जानलेवा बीमारी: बुखार से भाई-बहन समेत पांच की मौत, डेंगू के नौ मरीज मिले, गांवों में स्थिति खराब

से पीड़ित मरीजों की जान जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग शिविर लगाने की बात कह रहा है लेकिन गांवों में कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। जिले में जानलेवा बुखार ने पांच और लोगों को शिकार बना लिया है। ठाकुरद्वारा में मोहल्ल जाटवान निवासी हरबंस सिंह ( 65 ) और उनकी बहन वीरवती देवी ( 55 ) की बुखार से मौत हो गई। दोनों को छह दिन से बुखार था। उन्हें पहले मुरादाबाद व फिर काशीपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। हरबंस के बेटे बिट्टू व वीरवती के बेटे पवन ने बताया कि दोनों को जांच के बाद डॉक्टरों ने डेंगू बताया था। लगातार प्लेटलेट्स कम होने और हालत में सुधार ने होने पर दोनों को रविवार रात देहरादून के जॉलीग्रांट अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया। ठाकुरद्वारा में अब तक बुखार व डेंगू से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर मैनाठेर गांव निवासी शाने आलम ( 8 ) को पांच दिन पहले बुखार आया था। सामान्य बुखार मानकर परिजनों ने झोलाछाप से इलाज कराया। हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान बालक की मौत हो गई। मैनाठेर में ही मेहंदी हसन की पत्नी शहनाज बेगम ( 55 ) को चार दिन पहले बुखार आया था। महिला का गांव में इलाज कराया गया लेकिन रविवार

भी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक महिला को पांच दिन से बुखार था। मुरादाबाद के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डेंगू के ज्यादातर मरीज अस्पताल में

को उनकी मौत हो गई। कुंदरकी

के मोहनपुर गांव में बुखार पीड़ित

महिला अफरोज जहां ( 45 ) की



#### भर्ती

पिछले तीन दिन में डेंगू के जो मरीज मिले हैं उनमें से ज्यादातर अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं सोमवार को नौ लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। अब जिले में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 369 हो गई है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम

गतौरा में शिविर लगाया गया है। इसके अलावा ठिरियादेन, चिड़ियाठेर, गुरेर, बीजना, अगवानपुर व शहर में शिविर लगाकर 1200 से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। डॉ. श्रीवास्तव का कहना है कि यदि किसी को डेंगू व बुखार के लक्षण हैं तो वह 0591-2411224 पर कॉल करके जानकारी दे सकता है।

9027776991 रवाना, दयानाथपुर, अब्दुल्लापुर लैदा, सरकड़ा परम, मानपुर पट्टी, मुरादाबाद की ट्रॉफियां ने लगाए मोटो जीपी में चार चांद, टी-20 में भी कारीगरों ने दिखाया हुनर



मुरादाबाद - इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ( आईआईए ) के पदाधिकारी एवं निर्यातक गोपाल मेहता की कन्हैयालाल नाम से दिल्ली रोड पर फैक्टरी है। इसी फैक्टरी में मोटो जीपी के लिए 17 टॉफियां को तैयार कर नोएडा भेजा गया था। वह 1935 से ट्रॉफी बनाने का कार्य कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में आयोजित मोटो जीपी की ट्रॉफियां मुरादाबाद की फैक्टरी में तैयार की गईं थी। इसी प्रकार कुछ दिनों पहले यूपी टी-20 लीग मैच की ट्रॉफी भी मुरादाबाद से तैयार कर लखनऊ भेजी गईं थी। इंडियन एसोसिएशन

( आईआईए ) के पदाधिकारी एवं निर्यातक गोपाल मेहता की कन्हैयालाल नाम से दिल्ली रोड पर फैक्टरी है।इसी फैक्टरी में मोटो जीपी के लिए 17 ट्राफियां तैयार कर नोएडा भेजी गईं थी। कंपनी के मालिक गोपाल मेहता ने बताया कि वे 1935 से ट्रॉफी बनाने का कार्य कर रहे हैं। देश के विभिन्न स्थानों पर उनकी ट्राफियों ने समारोहों में चार चांद लगाए हैं। उनको ट्रॉफी बनाने की सीख अपने पिता स्वर्गीय राधा कृष्ण मेहता से मिली थी। वह ग्राहकों की पसंद के मुताबिक ट्राफियां बनाकर देते हैं। जीपी मोटो और यूपी टी-20

आर्डर सीधे मिला था। तय समय करने के लिए डिजाइन और के अनुसार उन्होंने ट्रॉफियां बनाकर दे दी थीं। इसके अलावा डीलरों के माध्यम उनकी फैक्टरी में तैयार ट्रॉफियां मुंबई, बंगलुरू, चेन्नई और कोलकाता भेजी गई हैं। सबसे अधिक ट्रॉफियां मुंबई और बंगलुरू के महत्व पर असर पड़ता है।

सभी डी०जी०सी० उपस्थित रहें।

लीग मैच के लिए ट्रॉफी बनाने का के डीलर लेते हैं। ट्राफियों को तैयार प्रोडक्शन में काफी मेहनत करनी पड़ती है। काफी लोगों के मामले में गोपनीयता भी बरती जाती है। ट्राफियों के दामों को गोपनीय रखा जाता है। कीमत बताने से ट्रॉफी

## क्यूँ न लिखूँ सच

मण्डलायुक्त की अध्यक्षता

में अभियोजन कार्यो की

समीक्षा बैठक सम्पन्न

क्यूँ न लिखूँ सच

मुरादाबाद - मण्डलायुक्त श्री आन्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में

कमिश्नरी सभागार में कानून एवं विधि व्यवस्था अपराध स्थिति तथा

निरोधात्मक कार्यवाही, अभियोजन कार्य एवं विशिष्ट महानुभावों की

सुरक्षा हेतु गनर, शेडो, गार्द के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की

गयी। बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिए कि अभियान चलाकर पुराने

वादों को जल्द से निपटाया जाया। इस अवसर पर आई0जी0 पुलिस

श्री मुनिराज जी, जिलाधिकारी मुरादाबाद श्री मानवेन्द्र सिंह,

जिलाधिकारी अमरोहा श्री राजेश कुमार त्यागी, जिलाधिकारी सम्भल

श्री मनीष बंसल, जिलाधिकारी बिजनौर श्री अंकित कुमार अग्रवाल,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद श्री हेमराज मीना , पुलिस अधीक्षक

रामपुर श्री राजेश द्विवेदी , पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री कुवर अनुपम

सिह,ं पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री कुलदीप सिहं, पुलिस अधीक्षक

बिजनौर श्री नीरज कुमार, अपर निदेशक अभियोजन, संयुक्त निदेशक

अभियोजन मुरादाबाद, संयुक्त निदेशक अभियोजन रामपुर, संयुक्त

निदेशक अभियोजन बिजनौर, संयुक्त निदेशक अभियोजन अमरोहा,

संयुक्त निदेशक अभियोजन सम्भल सहित मुरादाबाद मण्डल के

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच

को जिला एवं तहसील स्तर पर

प्रतिनिधि चाहिए

<u>ष्योरो संवाददाता व विज्ञापन</u>

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11; असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

संपादक - नरेश राज शर्मा मो. 9027776991 RNI NO- UPBIL/2021/83001

ग्ज़ल संग्रह चश्म-ए-नम

का विमोचन

खान ने कहा कि देश की आज़ादी

के लिए बलिदानों की गाथा लिखने

वाले शाहजहांपुर के अमर शहीद

रामप्रसाद बिस्मिल और अशफ़ाक़

उल्ला खाँ की साझी शहादत और

साझी विरासत साम्प्रदायिक सद्भाव

की एक मिसाल है. दूसरी ओर

साहित्य के क्षेत्र में भी यहाँ की भूमि

बहुत ही उर्बरा है. हिंदी और उर्दू

दोनों भाषाओं में साहित्य

सृजनबखूबी किया जा रहा है.

तुलसी-मीर फाउंडेशन के अध्यक्ष

इशरत सगीर ने कहा कि आतिश

मुरादाबादी गृज़ल के नियमों से

बखूबी वाकिफ़ हैं। कहने का

अंदाज़ भी खूब मुखर है। अपने

मन की बात से लेकर सामाजिक

सरोकारों को भी अशआरों में ढाला

है। उनकी संवेदनाएं उनकी गृज़लों

में मुखरित हुई हैं। इस अवसर पर

शायर आतिश मुरादाबादी ने

%चश्मे-नम% के प्रकशन में

उत्साहबर्धन करने वाले अपने

वरिष्ठजनों के प्रति आभार व्यक्त

किया. युवाकवि पीयूष शर्मा ने

एनजीटी के निर्देशों का पालन न करने

पर संयुक्त जांच टीम के प्रतिवेदन के

आधार पर कलेक्टर ने की कार्यवाही

रूप से जिले में संचालित समस्त

पत्थर खदानों एवं स्टोन ऋेशरों का

भ्रमण कर पर्यावरणीयअनुमति

तथा जल एवं वायु संपत्ति में विहित

प्रावधानों का पालन किए जाने के

संबंधी उपायों का परीक्षण किया।

तत्संबंध में जिला खनिज प्रभारी

अधिकारी एके राय के अनुसार

मौका जांच में पर्यावरणीय अनुमति

तथा जल एवं वायु संपत्ति में दिए

निर्देशो का पालन न करने पर

कलेक्टर द्वारा पट्टेदार मां आदि

शक्ति स्टोन पार्टनर के पक्ष में ग्राम

पिपरवान तहसील चितरंगी के

## ब्लॉक के सभी जूनियर विद्यालयों से बच्चों ने प्रतिभाग किया

शेर सिंह बरेली-राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम 2023- 24 के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय विज्ञान गणित प्रतियोगिता का आयोजन ब्लॉक संसाधन केंद्र मझगवां पर किया गया जिसमें ब्लॉक के सभी जूनियर विद्यालयों से बच्चों ने प्रतिभाग किया प्रतियोगिता तीन चरणों में संपन्न हुई, प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक विद्यालय सत्तार नगर से दुर्वेश यादव ने प्रथम स्थान, उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवनगर से ऋतु दिवाकर ने

विजेता छात्र-छात्राओं को सुश्री होरीलाल जी एआरपी विज्ञान,हेमंत शीतल श्रीवास्तव,खंड शिक्षा अधिकारी मझगवां द्वारा बच्चो को मोमेंटो प्रसास्ति पत्र एवं मैडल द्वारा पुरस्कृत किया गया प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ललित गंगवार ने बताया कि छात्रों में श्चितापूर्वक पूर्वक एवं कुशलता

द्वितीय स्थान तथा उच्च प्राथमिक

विद्यालय अनिरुद्धपुर से विशेष

प्रजापित ने तृतीय स्थान प्राप्त



का प्रमुख उद्देश्य था ब्लॉक मंत्री अनिल कुमार सिंह ने बताया की प्रतियोगिता में टॉप 6 छात्र ब्लॉक से जिले स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में नामित किए गए हैं शाक्य एआरपी गणित , रेवती नंदन एआरपी सामाजिक विषय, संघिमत्रा गौतम एआरपी अंग्रेजी ,िकशोर कुमार ,एआरपी हिंदी के कुशल दिशा निर्देश में परीक्षा

खान, इमरान अहमद, सूर्यप्रताप, भानूसिंह, विनीत बाबू, विश्वादेव सागर, रूपेंद्र राठौर, भावना वर्मा, नेहा आनंद, नीरज,गुड्डी सरोज,रजनीश वर्मा, रंजीत सिंह, आदेश यादव, जितेंद्र रस्तोगी, करुणाशंकर, सुधेंद्र, जोगराज, पोशाकीलाल, राजवीर, आशीष मिश्रा, बनबारी लाल, हरपाल आदि शिक्षक मौजूद रहें द्यबीआरसी स्टाफ अजय बाबू, उपेन्द्र पटेल एवम विनोद पटेलभी क्यूँ न लिखूँ सच

हरदोई-साहित्य ने सदैव

सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ बनाए

रखने का कार्य किया है. वर्तमान

में भी मानवीय मूल्यों के बिखराव

को रोकने के लिए साहित्यकारों

द्वारा अपनी भूमिका का निर्बाह

अपरिहार्य है. युवा शायर आतिश

मुरादाबादी के गृज्ल-संग्रह

%चश्मे-नम% के विमोचन समारोह

की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ कवि

ज्ञानेन्द्र मोहन %ज्ञान% ने कहा कि

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,

वह अपने आसपास के माहौल से

प्रभावित जरूर होता है। उसके

भीतर की संवेदनाएं ही उसे मनुष्य

बनाती हैं। इन्हीं संवेदनाओं का

ह्रास वर्तमान में चिंता का विषय

तुलसी-मीर फाउंडेशन के

तत्वावधान में बीती शाम उक्त

विमोचन समारोह टाउनहाल स्थित

एक कैफे में संपन्न हुआ. समारोह

के मुख्य अतिथि शायर ख़लील

शौक़ ने आतिश मुरादाबादी को

मुबारक़बाद देते हुए कहा कि नए

रचनाकारों में गुज़ल के नियमों के

प्रति उनकी गहन रुचि भी देखने

को मिल रही है। वे बह्र, वज्न,

रदीफ़, क़ाफ़िया के साथ-साथ

कथ्य ( मफ़हूम ) पर अपनी पकड़

बना रहे हैं। यही वज़ह है कि

लगातार गृज़ल संग्रह प्रकाश में आ

रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में

जी.एफ.कालेज के हिंदी प्रवक्ता

क्यूँ न लिखूँ सच

मां आदि शक्ति स्टोन क्रेशर

पिपरवान कलेक्टर के बंद करने

के आदेश के बाद भी संचालन

जारी एनजीटी के निर्देशों का

पालन न करने पर संयुक्त जांच

टीम के प्रतिवेदन के आधार पर

कलेक्टर ने की कार्यवाही

सिंगरौली 18सितम्बर। जिले में

एनजीटी के दिशा निर्देशों का

पालन न करने वाले मां आदि

शक्ति स्टोन ऋेशर पत्थर खदानो

के उत्खनन पर तत्काल प्रभाव से

रोक लगाते हुए ऋेशर को बंद

करा दिया गया है।यह कार्यवाही

कलेक्टर के निर्देश पर खनिज

विभाग के द्वारा की गई है। इस

कार्यवाही से खनिज से जुड़े

कारोबारीयो में हड़कंप मच गया

है। गौर तलब हो की एनजीटी से

पारित आदेश दिनांक 10 मई

2023 तथा कलेक्टर अरुण कुमार

परमार के निर्देश में खनिज एवं

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त

मानस मिश्रा

एन.राज शर्मा

#### विज्ञान के प्रति जागरूकता व पूर्वक संपन्न कराई गईद्य इस मौके मौजूद रहें प्रेमिका की बढ़ती फरमाइशी से तंग आकर प्रेमी ने कर दी हत्या। लाश को बोरे मे भरकर फेंक दिया नदी मे

क्यूँ न लिखूँ सच महेश कछावा

नागदा- करीब चार दिन पहले चंबल नदी जूना नागदा के पास एक अज्ञात महिला का बोरे मे भरा शव पुलिस को मिला था।जिसकी पहचान उसके हाथ पर लिखे नाम वरदीबाई के नाम से हुई थी जिसकी गुमसूदगी की रिपोर्ट उनके परिवार ने एक दिन पहले ही मंडी थाने मे दर्ज करायी थी। शव मिलने पर परिवार के लोगों की पहचान से पता चला कि मृतका पाल्या गांव की निवासी है इस अंधे कत्ल की गुत्थियों को मंडी थाना पुलिस ने 4दिन मे सुलझा लिया इस हत्या को अंजाम देने वाला मृतका महिला से करीब दो तीन साल से प्रेम सम्बंध रतन गुर्जर प्रेमी ही निकला जिसने हत्या करना स्वीकार है। मंडी थाने मे आज हुई प्रेस वार्ता मे एडिशनल एस पी नितेश भागेव,व थाना प्रभारी नलिन बुधोलिया ने इस अंधे कत्ल का खुलासा करते हुऐ मीडिया को बताया कि हत्या करने वाले रतन गुर्जर आरोपी ने बताया



कि मृतका का उसके साथ करीब तंग आकर रतन ने पास रखे दराते दो तीन सालो से संबंध था जिसके चलते मृतका पर वह खूब पैसे खर्च करता था उसके बाद भी वह खूश नही थी ओर महिला ही से उसकी जमीन को अपने नाम कराने के लिए आये दिन दबाव लगा ।ओर मंगलवार के दिन रतन उस महिला को अपनी बाइक पर बैठाकर अपने खेत ले गया जहा वरदीबाई व रतन के बीच जमीन को लेकर विवाद होने लगा जिससे

से महिला के सिर ,गरदन चेहरे पर कई वार कर दिये जिससे महिला की वही मोत हो गयी।जिसे उसने एक बोरे में लाश को भरकर बाइक फ़रमाइश बढने लगी व उसने गुर्जर से चंबल नदी मे पूल से फेंक दिया तथा उस महिला का मोबाइल भी नदी फेक दिया।उसने बताया बनाने लगी जिसके कारण मै कि महिला के पास से निकली रकम मानसिक तोर पर परेशान रहने को उसने उसके मकान के पास पुलिस ने आरोपी से रकम व हत्या के उपयोग में कि गयी बाइक को भी जप्त कर उसे सलाखों के पिछे पहुंचा दिया है।

## वरिष्ठ नागरिकों एवं सेवानिवृत कर्मचारी का दायित्त्व

क्यूँ न लिखूँ सच पुष्पेंद्र तिवारी राष्ट्रीय अधिमान्य पत्रकार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश प्रदीप कुमार तिवारी का निजी मत है कि सेवानिवृत या परिवार की सामाजिक जिम्मेवारियों से मुक्त होकर अधिकांश वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा करते हैं। जो एक बहुत अच्छी परिपाटी है। हमको हमारे देवी-देवताओं के दर्शन लाभ के साथ- साथ धार्मिक पर्यटन का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। खासतौर पर महिलायें इन कार्यो में विशेष रुचि रखती हैं। कुछ लोगो का मानना है कि इससे पाप कर्म कट जाते है तथा अगला जन्म सुधर जाता है। इस तीर्थ यात्रा तथा अगला जन्म सुधारने के साथ-साथ हमको हमारे समाज में जातिगत आरक्षण एवं स्ष्ट,स्झ एक्ट से पीड़ित व्यक्तियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यह हमारा समाज के प्रति कर्त्तव्य है। यदि हमारे सभी बच्चे अच्छे रोजगार पर हैं और हमारे भाई तथा समाज के बच्चे बेरोजगार हैं तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं हम कितने भी सुखी तथा सम्पन्न हैं परन्तु यदि

किसी व्यक्ति ने द्वेषवश झूठा स्ष्ट,

स्ञ केस लगा दिया तो जेल जाना



ही पड़ेगा जमानत करवाना ही पड़ेगा इस तरह देश में सैंकड़ों केस हो चुके हैं, और रोज हो रहे हैं इस एक्ट का अधिकतर दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश की सीधी जिले के चुरहट स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ युवा डॉक्टर शिवम मिश्रा एवं दौसा जिले के लालसोट कस्बे में एक होनहार स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को फर्जी स्ष्ट,स्झ केस से दुऱ्खी होकर आत्महत्या करनी पड़ी इसी प्रकार यदि हमारा मित्र / समाज बन्धु फर्जी स्ष्ट, स्झ एक्ट में जेल में है तो भी हम सुखी कैसे रह सकते हैं हमारा मानना है कि हमको इस विषय में जो विसंगति है, उसके प्रति समाज को जागृति करना चाहिए। हमको हर सम्भव प्रकार से इन दो अभिशापों- जातिगत आरक्षण एवं स्ष्ट-स्ञ एक्ट के विरूद्ध जन जागृति पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। हमें हर वो

प्रयास करने चोंहिए जिससे कि हमें से अधिक घृणित है

क्यूँ न लिखूँ सच लंकीन प्रसाद वर्मा श्रावस्ती भिनगा पंजाब नैशनल बैंक शाखा भिनगा के वरिष्ठ प्रबंधक आशीष मिश्रा व सहायक प्रबंधक अमित गुप्ता के दिशानिर्देशानुसार श्रावस्ती के इकौना क्षेत्र में प्रडोर टू डोर एकाउंट ओपनिंग 🛨 मिशन चलाया गया जिसके अंतर्गत उन लोगों तक अपनी सर्विसेज पहुँचाएँगे जो लोग अभी तक ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में नही जानते अथवा वो लोग जो किसी भी कारण से बैंक तक व बैंक की सर्विसेज तक पहुँचने में अक्षम है उन तक पहुँचाएँगे और

जीवन में जो आरक्षण Atrocities Act जैसे अन्याय अत्याचार भुगतने पड़े वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को ना भुगतना पड़े अन्याय सहना अन्याय करने

एक नारा भी दिया नाउ द बैंक के द्वारा सभी वर्ग के पुरूष महिला

विल बी एट योर डोरस्टेप। बैंक का नि:शुल्क खाता खोला गया कर्मचारी लोक राज नारायण पाठक तथा साथ साथ में पाठक ने

मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ही नहीं यह खुद में ही एक बैंक है। इसमे कस्टमर बिना बैंक जाये बैलेंस ट्रांसफर नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई,स्कैन,एफडी/आरीडी/ पीपीएफ व सेविंग एकाउंट खोलना व बीमा, डेबिट/ऋेडिट कार्ड, चेकबुक, मोबाइल रिचार्ज, बिल का भुगतान लॉकर रिक्केस्ट एवं बिना बैंक जाये आठ लाख तक का लोन ले सकता है एवं एक क्लिक पर अपना खाता किसी भी शाखा में स्थानांतरित कर सकता है एवं केसीसी रिनिवल इत्यादि बहुत सी सुविधाएँ का लाभ उठा सकता है। सुनील जायसवाल व अजय अवस्थी ग्राम प्रधान एवं सैकड़ो ग्रामीण उपस्थित रहे।

ग्राम पड़खुरी रजक समाज संगठन के अध्यक्ष बने शिवकुमार रजक



क्यूँ न लिखूँ सच प्रदीप कुमार तिवारी रामपुर बघेलान के अंतर्गत ग्राम बढ़ैया के शिवकुमार रजक जी निज निवास पर ब्लॉक कमेटी का संगठन रजक सामुदाय संगठन के नेतृत्व में किया गया है जिसमें श्री 108 संत जनों से आशीर्वाद लिया गया स्वर्गीय रामसिया रजक

बिस्मिल ने नात प्रस्तुत कर समारोह

का शुभारम्भ किया. अतिथियों को

बैज लगाने के उपरांत पुस्तक का

विमोचन किया गया तथा शायर

आतिश मुरादाबादी को उनके

साहित्यिक योगदान के लिए शाल

ओढ़ाकर व स्मृतिचिह्न भेंटकर

सम्मानित किया गया. शायर

असगर यासिर, रशीद हुसैन राही,

अजय अवस्थी व परवेज़ अहमद

खान ने भी समारोह को सम्बोधित

किया. इस अवसर पर सर्वश्री

पुरुषोत्तम गोस्वामी, शायर हमीद

खिज्र, डा. राजीव सिंह भारत,

लालित्य पल्लव भारती, जितेन्द्र

अग्निहोत्री, अभिषेक ठाकुर

%अधीर%, राम प्रवेश सिंह,

कीर्तिमान च्यवन, अनूप कुमार

एडवोकेट, हन्नान खान, कार्टूनिष्ट

सैफ असलम, सुखवंत सिंह,

चाँदनी रखेज़ा, फरहान चिश्ती

आदि उपस्थित रहे. समारोह के अंत

में तुलसी-मीर फाउंडेशन के सचिव

विकास सोनी %ऋतुराज% ने

उपस्थित लोगों के प्रति आभार

170हे.क्षेत्र शास. भूमि पर स्वीकृत

पत्थर उत्खनि पट्टा एवम स्थापित

ऋेशर का संचालन बंद करा दिया

गया वहीं प्रभारी अधिकारी खनिज

ने आगे बताया कि यह कार्यवाही

कलेक्टर के निर्देशानुसार शीघ्र ही

पर्यावरणीय अनुमित तथा जल

संपत्ति में दिए गए समस्त निर्देशों

का पालन न करने वाली अन्य

खदानों एवं स्टोन संचालन भी बंद

किया जाएगा। इधर इस कार्यवाही

से ऋेशर संचालकों में हड़कंप मचा

हुआ है। लेकिन कलेक्टर कि

संचालन बंद करने के आदेश के

बाद भी मां आदि शक्ति स्टोन

ऋेशर का संचालन जारी है खनिज

अधिकारी कलेक्टर के आदेश का

पालन नहीं करा पा रहे हैं देखना

होगा कि इसी तरह आदेश के बाद

कब तक संचालन जारी रहता है

और किसकी मिलीभगत से ऋेशर

संचालन जारी किया है

शिक्षक पूर्व ब्लाक अध्यक्ष का श्रद्धांजलि पूजा अर्पित की गई शांति मौन धारण कर सभी रजक बंधु उनके आत्मा का शोक व्यक्त किया फिर वृद्धो का सम्मान किया गया प्यारेलाल रजक रामनगर गैबी भाई दलदल लोचन रजक आदि वृद्धो का सम्मान किया गया इसके बाद ब्लॉक कमेटी का

ब्लॉक अध्यक्ष नए निर्वाचन श्री शिव कुमार ग्राम पड़खुरी अध्यक्ष पद चुना गया और शिवकुमार रजक बढ़िया उपाध्यक्ष का विजयपाल देव मऊ दलदल कामता प्रसाद रजक अवेर सचिव संतोष कुमार रजक रामनगर कमेटी के संयोजक राजेंद्र कुमार वर्मा सज्जनपुर नेतृत्व कार्ता श्री राम सुख रजक एवं प्रदेश अध्यक्ष सभी खंड बंधु एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश कुमार रजक जी राष्ट्रीय दरार से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सीताराम रजक जी जिला अध्यक्ष लाल रजक बिहरा पी. वी. राजाजी मुख्य अतिथि एवं ब्लॉक उचेहरा अध्यक्ष सुनील कुमार सभी पद पदाधिकारी द्वारा समिति का

## बिना सूचना के भवन निर्माण में की गई तोड़फोड़



क्यूँ न लिखूँ सच प्रदीप कुमार तिवारी

अनिल प्रताप सिंह तनय के पी सिंह निवासी अनंतपुर जो मेरे पक्षकार है आज दिनांक 26/09/2023 को मेरे पास मेरे चेंबर में बैठे थे तभी लगभग 3 बजे की बात है। दूरभाष से अनिल सिंह को सूचना आयी है कि आप के दुकान के शासन भी पक्षकार है और आप सामने काफ़ी पुलिस बल एव नायब तहसीलदार शहर श्री यतीन्द्र जानकारी है तब उन्होने काम शुक्ला मौके पर आकर आपका भवन गिरा रहे हैं तभी मेरे पक्षकार अनिल सिंह ने अनुरोध पर मैं उनसे भूमि है नंबर 99/6, 99/7, 99/ 7/1 जो तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठखंड जिला रीवा पीठासीन अधिकारी ललित कुमार माइडा जी के न्यायालय का प्रकरण ऋमांक ऋष्ट्र 155/2022 मे पारित आदेश दिनांक 12/05/ 2022 के तहत प्रतिवादी गण को है 7

निषेधित किया गया किन्तु इसके पश्चात नायब तहसीलदार श्री यतीन्द्र शुक्ला जी से बात करने पर यह बताया गया है कि माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश पर भवन गिराने आया हूँ तब मैंने नायाब तसील दार से उक्त आदेश दिखाया यह कहा कि मध्य प्रदेश सब लोगों को इस आदेश की मशीन बंद कराया और चले गए भवन की तोड़फोड़ से मेरे पक्षकार श्री अनिल प्रताप सिंह जी को लगभग 4 लाख रुपया के आस पास का नुक़सान कर दिया है अनिल प्रताप सिंह को भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत जोरी से 3 मंज़िल की अनुमति प्राप्त है तथा 97000 रुपया के लगभग ग्राम पंचायत की परिमीशन शुल्क जमा

#### राजश्री कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स रैंक अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित



क्यूँ न लिखूँ सच रिठौरा राजश्री इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में रैंक अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। जिसमें एनसीसी के कैडेट्स को मुख्य अतिथि मेजर इंदु मिश्रा, 8 यूपी गर्ल्स बटालियन बरेली ने विभिन्न रैंक द्वारा सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में बताया कि रैंक को पाना देश और समाज के प्रति जिम्मेदारियों के

संस्थान की एकेडेमिक एडवाइजर मिस तूलिका अग्रवाल ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स के रूप में

निर्वहन के प्रति और गंभीर होना

बालिकाओं के देश के प्रति योगदान उनके स्वावलंबन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। रैंक अवार्ड सेरेमनी में 8-यू0पी0 गर्ल्स बटालियन से दीक्षा सिंह को सीनियर अंडर ऑफीसर, प्रियांशी वर्मा को जूनियर अंडर ऑफीसर, वर्षा श्रीवास्तव को सर्जेंट रैंक से एवं 21-यू0पी0 बटालियन से मुस्तफा को सीनियर अंडर ऑफीसर, कैफ को जूनियर अंडर ऑफीसर रैंक से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर निदेशक शैक्षणिक डाँ० अनिल कुमार, डॉ0 रावीश अग्रवाल, डॉ0 सुषमा गंगवार, मौजूद रहे।

#### पीएनबी भिनगा ने डोर टू डोर एकाउंट ओपनिंग

उन सभी लोगो का खाता खोलेंगे जिनका खाता पीएनबी में नही है उन्हें हर तरीके से हर सर्विसेज का लाभ देंगे । अब बैंक होगा ग्राहक के द्वार। पहुँचाएँगे है। बैंक ने ये



## सरकारी अस्पताल बना चोरों का अड्डा

क्यूँ न लिखूँ सच हारून बख्श

श्रावस्ती- फर्रुखाबाद कायमगंज मे सरकारी अस्पताल बना चोरों का अड्डा कायमगंज के सीएचसी अस्पताल में चोरों का जोर इतना अधिक हो गया है आए दिन कोई न कोई घटना का मामला सामने आता रहता है कभी मोटर साइकिल की चोरी कभी जेबकतरों का मामला चर्चा में बना रहता है आज कायमगंज सीएचसी में रामनरेश पुत्र मलखान सिंह निवासी जिराऊ जोकि दवाई का पर्चा बनवाने लाइन में खड़ा था उसी दौरान चोरों ने उसकी जेब में रुपए उड़ा दिए वही दूसरी घटना नीरज पुत्र सत्यदेव निवासी अहिवरन नगला कंपिल ओपीडी में डाक्टर को



दिखाने लाइन में खड़ा था उसी दौरान चोरों ने नीरज का मोबाइल निकलकर दूसरी घटना को अंजाम दे दिया अस्पताल में पीड़ित अपने परेशानी के साथ आता है जिसके बाद उसको चोरों चोरों द्वारा उत्पीड़ीन सहना पढ़ता है जबिक पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगी होने के बाद भी मोटर साइकिल की चोरी हो जाती है पुलिस कर्मी एक तरफ बैठे दिखते है जिसको किसी समस्या से कोई मतलब नहीं होता है अगर सख्ती से पालन किया जाय तो आय दिन हो रही घटना को रोका जा सकता है रामनरेश ने बताया की मेरी हाथ में दर्द है जिसका एक्सरे होना था मैने डाक्टर साहब से बोला की एक्सरे

लिख दी उन्होंने मना कर दिया और कह नहीं लिखेंगे मैं यहां का सीनियर हू जिससे शिकायत करना हो कर दो जब मामला यूपी 76 के रिपोर्ट के सामने आया तो डॉक्टर विपिन कुमार ने उसका एक्सरे करवाने को लिख दिया आए दिन कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनको ये लोग सिर्फ खानापूरी करके टाल देते होंगे अस्पताल का हफ्ते में एक दिन ओचक निरीक्षण होना चाहिए

द्वारा आज दोपहर बाद सदर तहसील के सभागार में संचारी रोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी सभासदों को आमंत्रित किया गया था इस महत्वपूर्ण बैठक में सभासद असलम अंसारी के अलावा सभासद श्रीमती विटाना देवी के पति रामवीर चौहान ही शामिल हुए अन्य 40 सभासदों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया बैठक में नगर पालिका के सभी सफाई नायक संबंधित लिपिक अमित सक्सेना उर्फ लालू मुख्य सफाई निरीक्षक बृजेंद्र सिंह कर अधीक्षक राज नारायन कमल शामिल हुए इओ रविंद्र सिंह एवं डॉ ऋषिकांत गुप्ता व डॉक्टर सल्तनत खान ने संचारी रोगों से बचने के लिए बेहतर ढंग से सफाई

अभियान शुरू करने पर जोर दिया

3 अक्टूबर से शुरू होने वाला

संचारी अभियान 31 अक्टूबर

तक चलेगा जिला प्रशासन ने इस

सूरजपुर- दितमा मोड़- भारतीय

जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़

क्यूँ न लिखूँ सच

फर्रुखाबाद - फर्रुखाबाद मे नगर

पालिका फर्रुखाबाद के नाराज

सभासदों ने अधिशासी अधिकारी

के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी

शुरू कर दी है नगर पालिका के

हारून बख्श



इओ के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी सभासदों

ने संचारी रोग कार्यक्रम का किया बहिष्कार

लिए सफाई व्यवस्था पर पूरी ताकत लगाई है लेकिन नगर फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के सभासदी के सहयोग के कारण अभियान कितना सफल होगा नगर पालिका के सभासद अधिषासी अधिकारी एवं अध्यक्ष के मनमाने रवैया से बेहद नाराज है इओ ने 21 जून को नगर पालिका की पहली बैठक बुलाई थी इस बैठक में सभासदों के दबाव पर प्रतिमाह बोर्ड की बैठक बुलाये जाने एवं विकास समितियों का शीघ्र गठन किए जाने का प्रस्ताव पास कराया गया था लेकिन इन प्रस्तावों पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ जिसके कारण ही सभासदों में जबरदस्त असंतोष व्याप्त है इसी बैठक के संबंध में सभासद अनिल तिवारी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने सभी सभासदों से आज की बैठक में न जाने का निवेदन करते अभियान को सफल बनाने के हुए अपनी ताकत का अहसास

आक्रोशित श्री तिवारी ने कहा है कि अधिकारी इस अभियान की आड़ में बिल बनाकर जनता के धन की बर्बादी करेंगे हम लोगों को जनता की निगाह में खरा उतरना है हम लोग तानाशाह के सामने मुर्गी बनकर नहीं रह सकते हैं सभासद रफी अंसारी ने बीती देर रात सोशल मीडिया पर बैठक में न जाने का मैसेज पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कर्मचारियों व अधिकारियों पर मलाई खाने का आरोप लगाया सभासद हाजी असलम अंसारी ने एफबीडी न्यूज़ को बताया कि जनहित का कार्य होने के कारण मैं बैठक में शामिल हुआ हू सभासदों के हित के लिए सभासद भाइयों के साथ रहूंगा सभी सभासदों को एक राय से निर्णय करके अपने हित के लिए आंदोलन चलाना चाहिए वरिष्ठ सभासद अतुल शंकर दुबे के नेतृत्व में सभासदों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है इसके लिए सभी सभासदों की ओर से अधिषासी अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र लिखे जा रहे हैं शीघ्र ही ये शिकायती पत्र सूबे के मुख्यमंत्री एवं संबंधित मंत्री को सौंपे

कराए जाने की बात कही है

डीएम ने सड़क निर्माण कार्य का

#### आकस्मिक निरीक्षण कर लिया जायजा



क्यूँ न लिखूँ सच अरविन्द कुमार यादव श्रावस्ती- श्रावस्ती जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्य का जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने विकास खण्डगिलौला के अन्तर्गत ग्राम खैराकला पहुंचकर एन०एस०एल०एच० रोड से कल्याणपुर मार्ग का आकस्मिक निरीक्षण का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं मौके पर निर्माणाधीन सड़क को खुदवाकर मानक के अनुरूप सड़क की मोटाई और कंकरीट की लेयर की गुणवत्ता की जांच किया। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मानक के अनुरूप सड़क का

निर्माण कराया जाए, जिससे लोगों

के आवागमन में सुविधा हो सके। ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्धारित समय पर गुणवत्ता के साथ सड़क का कार्य पूरा कराया जिलाधिकारी ने प्राथमिक भी जायजा लिया और मानक के समय-सीमा के अन्दर पूरा कराने निर्देश दिया कि विद्यालय की

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अभियंत्रण को निर्देशित किया कि जाए तथा नियमित रूप से कराये जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग भी किया जाए। तदोपरान्त विद्यालय गोडारी में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये जा रहे विद्यालय के निर्माण कार्य का अनुरूप निर्माण कार्य कराकर का निर्देश दिया। उन्होने यह भी दिवारों पर वॉल पेंटिंग कार्य भी

#### 04 अन्तर्राज्यीय शातिर लुटेरों को लूटे गए एक लैपटॉप व अवैध असलहा कारतूस सहित किया गिरफ्तार क्यूँ न लिखूँ सच

निशाकांत शर्मा

एटा-थाना अलीगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, करीब चार दिन पूर्व थाना अलीगंज क्षेत्रान्तर्गत ज्वैलर्स के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण, 04 अन्तर्राज्यीय शातिर लुटेरों को लूटे गए एक लैपटॉप व अवैध असलहा कारतूस सहित किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद । घटना का विवरण - दिनांक 22.09.2023 को वादी हेमंत सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासी पचंदा थाना अलीगंज जनपद एटा द्वारा थाना अलीगंज पर सूचना दी गई कि वादी की कस्बा अलीगंज में सर्राफा की दुकान है, वह शाम को अपनी दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था।तभी पचंदा गांव के पास ही अपाचे



संबंध में थाना अलीगंज पर मुअसं 267/ 23 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी एवं अनावरण - उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री राजेश कुमार सिंह ने प्रभारी निरीक्षक अलीगंज श्री प्रेमपाल सिंह को अभियुक्तगण

पुलिस अभिरक्षा से फरार इनामिया बदमाश

को जीआरपी पुलिस ने पकड़ा

25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था

अनुभाग झाँसी/आगरा आदित्य

लांगहे द्वारा पुलिस अभिरक्षा में

फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु

चलाये गए अभियान के ऋम में

प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार

पाण्डेय थाना जीआरपी झाँसी के

नेतृत्व में गठित टीम द्वारा वीरांगना

लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के झांसी

कानपुर यार्ड के पास से एक

अभियुक्त को पकड़ने में सफलता

हासिल की है। पकड़े गए अभियुक्त

की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक श्री धनंजय सिंह कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी अलीगंज श्री शुधांशू शेखर के निर्देशन में आज दिनांक 26.06.2023 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को रोडवेज बस स्टैण्ड के पास से समय करीब 05.10 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की

## रजवार समाज ने लक्ष्मी राजवाड़े को प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा नेतृत्व को किया आभार

क्यूँ न लिखूँ सच रामचंद्र जायसवाल

विधानसभा के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची 17 अगस्त को जारी कर दिया है। जिसमें भटगांव विधानसभा क्षेत्र से रजवार समाज से लक्ष्मी राजवाडे को टिकट दिया है इससे हर्षित होकर रजवार समाज ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए भैयाथान विकासखण्ड के ग्राम केनापारा में बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में उपस्थित समाज के वरिष्ठ जनो ने कहा कि हमारे समाज के लिए यह गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी है जिसने गया था। पकड़ा गया आरोपी पहली बार रजवार समाज को शेलेन्द्र उर्फ टोपा पुत्र मनीराम उग्र बैकुंठपुर विधानसभा सीट से 20 वर्ष रेशम मिल पुरानी लाइन टिकट देकर सम्मान दिया। बैठक म न 46 थाना हजीरा जिला के मुख्य अतिथि रजवार समाज ग्वालियर का निवासी है। पुलिस के पूर्व कैबिनेट मंत्री भैया लाल ने अभियुक्त के कब्जे से एक राजवाड़े ने भी कहा की भारतीय अदद तमंचा 315 बोर व 2 जिन्दा जनता पार्टी ने मुझे पहली बार कारतूस बरामद कर धारा 3/25 टिकट देकर रजवार जाती का आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज सम्मान बढ़ाया और रजवार जाति कर कार्यवाही की है। वहीं फरार को एक नई पहचान दिया इसके



दिया तत्पश्चात 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने रजवार समाज से समाज की बेटी लक्ष्मी राजवाडे को भटगांव विधानसभा से अपना प्रत्याशी

प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को विधानसभा प्रत्याशी बनाया है जो हमारे समाज के लिए गौरव की बात है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देती हूं और साथ ही साथ हमारे समाज के प्रबुद्ध जनों मतदाता से अपील करती हूं कि आपकी समाज की बेटी की मान सम्मान की रक्षा करना आप सब की जिम्मेदारी है आप मुझे अपना पूरा समर्थन देंगे ऐसा आशा है और मैं यह भी कहती हूं

विधानसभा भेजेंगे तो मैं रजवार समाज को आदिवासी बनाने संबंधी प्रकरण को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से पहल करूंगी। इस पर भारी संख्या में उपस्थित समाज के वरिष्ठ जन एवं मतदाता बंधुओं द्वारा दोनों हाथ उठाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया गया रजवार समाज के धन्यवाद ग्रहण करने के लिए कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल एवं पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा उपस्थित रहे एवं रजवार समाज से पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रांत पदाधिकारी सुभाष राजवाड़े, कोरिया जिला के जिलाध्यक्ष रविशंकर रजवाड़े, गया प्रसाद राजवाड़े, पवन साय राजवाडे, राम टहल राजवाड़े एवं प्रांत पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं ग्राम समिति के पदाधिकारी बाद देखा ताकि में अन्य दल ने कि यदि आप मुझे चुनकर भारी संख्या में उपस्थित थे।



नाजायज चरस के साथ

क्यूँ न लिखूँ सच प्रेमचंद जायसवाल श्रावस्ती- श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के

विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के ऋम में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार थाना मल्हीपुर मय हमराह अहमद नि० ग्राम पटना थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती को घटना स्थल राप्ती बैराज के आगे



टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कब्जे से 650 ग्राम अवैध अभियुक्त 1.सद्दाम पुत्र फिरोज नाजायज चरस (क्रीमत लगभग रु**० 1,95,000 ) बरामद हुई।** अभियुक्त के विरुद्ध थाना मल्हीपुर पर मुकदमा पंजीकृत ककरदरी की तरफ जाने वाले मार्ग

## पुलिस ने मुठभेड़ में इनामिया शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार

क्यूँ न लिखूँ सच

मुठभेड़ में पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी दादे पुत्र रम्पत उर्फ रामपति निवासी दिनामगढ़ थाना इकौना जनपद श्रावस्ती को गिरफ्तार किया है इस पर गंभीर धाराओं के कई मामले दर्ज हैं। माह मार्च में पशु तस्करी के संबंध में थाना मल्हीपुर क्षेत्र के इंदवा टिकुईया के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान रात्रि का फायदा उठाकर फरार हो गया था-शातिर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु रूपए 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया



गिरफ्तार- मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के बाएं पैर में लगी गोली। कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 01 नाजायज तमंचा ३१५ बोर, ०१ फायर शुदा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस मौके था-मल्हीपुर पुलिस टीम् ने पर बरामद।

#### पर 25 हजार का घोषित किया बताया कि पुलिस अधीक्षक रेलवे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व छत्तीसगढ़ की संस्कृति हमारी प्राथमिकता- मुख्यमंत्री

अन्य दो बंदियों की भी तलाश

#### एक क्लिक में मुख्यमंत्री ने जिले को दी 734 करोड़ 60 लाख 48 हजार के विकास कार्यों की सौगात

क्यूँ न लिखूँ सच

क्यूँ न लिखूँ सच

झाँसी।रेलवे स्टेशन के पास बने

अपर मुख्य रेलवे न्यायालय में

पेशी पर आए तीन बदमाश विगत

19 सितंबर को पुलिस कस्टडी से

फरार हो गए थे। जिनकी

गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम

लगातार तलाश में लगी हुई थी।

वही पुलिस ने अपराधियों पर 25

हजार रुपए का इनाम भी घोषित

जिसमें से एक अपराधी को पुलिस

ने गिरफ्तार करने में सफलता

हासिल कर ली है। मामले का

खुलासा करते हुए पुलिस

उपाधीक्षक रेलवे नईम मंसूरी ने

रामचंद्र जायसवाल सूरजपुर- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज सिंगल क्लिक में सूरजपुर के जिलेवासियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 734 करोड़ 60 लाख 48 हजार के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। जिनमें मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जा रहे 259 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया गया। जिसकी लागत 734 करोड़ 60 लाख 48 हजार है। इन कार्यों में 225 करोड़ 52 लाख 1 हजार राशि के 166 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 509 करोड़ 8 लाख 47 हजार राशि के 93 विकास

कार्यों का भूमिपूजन कार्य शामिल

हैं। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में

बताया कि कैसे राज्य शासन नवा

छत्तीसगढ़ के सतत विकास की

दिशा में कार्य कर रही है। 26



कार्यक्रम में उन्होंने सूरजपुर जिले का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने आदिवासी बाहुल्य और दूरस्थ अंचल के क्षेत्र में विशेष फोकस करना शासन की प्राथमिकता की श्रेणी में है। उन्होंने आगे कहा किसान, मजदूर और लघु वन उपज संग्रहक को हमारी योजनाओं से नि:संदेह लागू है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति शासन की प्राथमिकता है। सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्न बने ताकि शासन के नया छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए समावेशी विकास की अवधारणा को छत्तीसगढ़ शासन अपना रही है। छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किए जाने वाले लोकार्पण कार्यों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत मनरेगा कार्य के तहत विभिन्न स्थानों में बाजार शेड, पुल-पुलिया स्टॉप डेम, चेक डेम, पहुँच मार्ग, आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन जैसे 26 निर्माण कार्य शामिल है। जिसकी कुल लागत 3 करोड़ 63 लाख 89 हजार है। इसी प्रकार

पार्क अंतर्गत 2 करोड़ 39 लाख 40 हजार के 12 पंचायतों में प्रशिक्षण भवन निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु 4 करोड़ 50 लाख 51 हजार के 20 कार्य, लोक निर्माण विभाग ( भवन एवं सड़क ) अंतर्गत 83 करोड़ 21 लाख 71 हजार की लागत के कुल 73 कार्य, लोक निर्माण विभाग सेतु अंतर्गत 18 करोड़ 6 लाख 3 हजार की लागत के पुल निर्माण के 02 कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 88 करोड़ 97 लाख 75 हजार की लागत से नवीन सड़क निर्माण व नवीनीकरण संधारण के 7 कार्य, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत प्रेमनगर, भटगांव व प्रतापपुर विधानसभा में कुल 2 करोड़ 35 लाख 2 हजार की

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक

निर्माण के 3 कार्य, जल संसाधन संभाग सूरजपुर अंतर्गत 9 करोड़ 56 लाख 63 हजार की लागत से जिले में जलाशय जीर्णोद्धार के 05 कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग अंतर्गत प्रतापपुर विकास खण्ड में 19 लाख 97 हजार की लागत से 01 सामुदायिक भवन निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग 6 करोड़ 01 लाख 44 हजार 12 कार्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल परियोजना उपसंभाग सूरजपुर अंतर्गत 41 लाख 67 हजार की लागत से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की नवीन शाखा देवनगर हेतु 01 भवन जीर्णोद्धार कार्य व 10 लाख 92 हजार की लागत से कार्यालय कलेक्टर परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की आदमकद प्रतिमा स्थापना 01 कार्य, आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत कुल 3 करोड़ 44 लाख 48 हजार की लागत से सीसी सड़क सह नाली लागत का 01 पोस्ट मैट्रिक व 01

प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास निर्माण एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अंतर्गत 2 करोड़ 73 लाख 33 हजार की लागत का लटोरी में 33/ 11 के.व्ही विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य शामिल है। कार्यक्रम में सरगुजा विकास प्राधिकरण अध्यक्ष व प्रेमनगर विधायक श्री खेलसाय सिंह, संसदीय सचिव व भटगांव विधायक श्री पारसनाथ राजवाडे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री नरेश राजवाड़े, नगर पालिका अध्यक्ष श्री के.के. अग्रवाल, नगर पंचायत जरही अध्यक्ष श्री बीजूदासन, ( उपभोक्ता संरक्षण फॉरेम ) श्री सुभाष गोयल, श्रीमती भगवती राजवाड़े, श्रीमती त्रयासों बाई जनपद अध्यक्ष, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री आई.कल्याण एलेसेला,जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम जनप्रतिनिधि व अन्य अधिकारी

कर्मचारीगण उपस्थित थे।

## इंटरसेप्टर से की गई ओवर स्पीड वाहनों की चेकिंग

#### क्यूँ न लिखूँ सच हारून बख्श

श्रावस्ती- गुरसहायगंज रोड पर चेकिंग मे 8 पकड़े आज परिवहन विभाग फर्रुखाबाद द्वारा इंटरसेप्टर के माध्यम से गुरसहायगंज मार्ग पर ओवर स्पीड वाहनों की चेकिंग की गई , चेकिंग में 8 वाहन ओवर स्पीड पाए गए जिनका चालान कर दिया गया एवं उनका लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा परिवहन विभाग फर्रुखाबाद को उप परिवहन आयुक्त कानपुर द्वारा चार दिनों के लिए इंटरसेप्टर वाहन प्रदान की गई है ताकि जनपद में ओवर स्पीड वाहनों को पकड़ा जा सके। इस कड़ी में आज एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा यातायात प्रभारी रजनेस कुमार द्वारा इंटरसेप्टर के माध्यम से 8 ओवर स्पीड वाहनों को पकड़ा गया । यह उल्लेखनीय है की फतेहगढ़ गुरसहायगंज मार्ग पर



तीन ब्लैक स्पॉट मेंहरूपुर सहजू मोड, लेनगांव मोड तथा हाजी नगला मोड / उबरी खेड़ा मोड स्थित है तथा इस मार्ग पर दुर्घटनाओं की अधिक संभावना रहती है, इसलिए दो पहिया वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मालयानों के लिए अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अन्य वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच

को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए

9027776991 knlslive@gmail.com

#### नवनियुक्त जेल वार्डर को दी गई प्राथमिक मेला जलविहार समिति ने किया श्री गणेश बैडमिंटन में प्रसिद्ध गोस्वामी प्रतिमाओं एवं भगवान के विमानों का स्वागत ने प्राप्त किया पहला स्थान चिकित्सा व आग से बचाव की जानकारी

OWN STATE

नेहा श्रीवास

झाँसी- बंदियो के स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक चिकित्सा से संबंधित तीन दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन में उप्र फायर सर्विस की वरिष्ठ अग्नि शामक एवं निगरानी समिति की सदस्य सुश्री प्रगति शर्मा %बया% द्वारा नवनियुक्त जेल वार्डर कार्मिकों को प्राथमिक चिकित्सा

प्राथमिक चिकित्सक के दायित्व, प्राथमिक सहायक के लिए मार्गदर्शन ,साथ ही प्राथमिक चिकित्सा की विभिन्न विधियां जैसे मानव बैसाखी विधि, रेस्क्यू ऋअल, टू, थ्री एवं फोर हैंड सीट विधि, क्लॉथ लिफ्टिंग विधि ,सीपीआर, उपलब्ध संसाधनो द्वारा स्ट्रेचर बनाना एवं आग लगने



के विभिन्न कारण ,आग के प्रकार, आग बुझाने के विभिन्न तरीके, उपयोग का तरीका व अग्नि से बचाव के प्रारंभिक उपाय प्रयोगात्मक व लिखित रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए।उक्त अवसर पर जेलर डॉ सुरेश मिश्रा ,कस्तूरी गुप्ता ,मुख्य अग्निशमन खान आदि उपस्थित रहे।

अधिकारी राज किशोर राय, अग्नि शमन अधिकारी रामकेश शुक्ला, अग्नि शमन यंत्रों का परिचय, डिप्टी जेलर प्रकाश बंसल, जगबीर सिंह चौहान, वीणा बाजपेई ,एल एफ एम जगत सिंह, सड़क सुरक्षा समिति सदस्य व अग्नि सचेतक दीपशिखा शर्मा ,फायरमैन जितेंद्र नायक ,शाहरुख

क्यूँ न लिखूँ सच नेहा श्रीवास

झाँसी- डोल ग्यारस पर गंधीगर का टपरा पर मेला जल विहार समिति झांसी ने मंदिरों के विमानों का भव्य स्वागत किया। आकर्षक सिंहासनों पर विराजमान देवताओं की विधि विधान से पूजा व वंदना की गयी। विसर्जन के लिए जा रही गणेश प्रतिमाओं की शोभा यात्रा का स्वागत किया गया।शाम को गंधीगर का टपरा पर सभी मंदिरों के गाजे बाजे के साथ विमान एकत्रित हुए। भगवान के दिव्य विग्रह की पूजा की। पुष्प वर्षा की गयी। इसके साथ मंदिरों के विमान नगर में भ्रमण कर जल विहार के लिए लक्ष्मी तालाब के लिए रवाना हुए । पहला विमान का पूजन अर्चन शहर कोतवाल ने किया ! रात्रि में चाचर त्रत्य का मोहक प्रर्दशन हुआ। जिन्हें समिति की ओर

ने मेले का इतिहास बताते हुए नगर

को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया।

इसके बाद नगर पालिका कन्या

इंटर कॉलेज की छात्राओं ने

सरस्वती वंदना व स्वागत गीत

प्रस्तुत किया। एक शाम बच्चों के



से पुरष्कार दिये गये। इस दौरान मेला जलविहार कमेटी अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ,महामंत्री पियूष रावत , नगर धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक, अमित चिरवरिया,पुरूषोत्तम स्वामी, प्रदीप नगरिया, आलोक चतुवेदी ,वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशन सरवरिया, विनोद अवस्थी, राजेश विरथरे, जगदीश प्रसाद गुप्ता, अतुल किल्पन, अजय मिश्रा ,सत्येंद्र पुरी गोस्वामी, मुकेश सोनी,अभिषेक साहू, पवन गुप्ता ,जयदीप खरे,नरेश सिंह ऋषि ,एडवोकेट समीर तिवारी ,प्रभात

शर्मा ,संजीव तिवारी ,एडवोकेट अतुल मिश्रा ,एडवोकेट नरेंद्र अग्रवाल, विकास अवस्थी सूर्यप्रकाश अग्रवाल,पुरुकेश अमरया, एडवोकेट हेमंत राव मीडिया प्रभारी डॉ भूपेंद्र रायकवार आदि उपस्थित रहे। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन नगर निगम का जो सहयोग पुरे कमेटी को मिला उसके लिए सभी कमेटी की ओर से वह मेला जलविहार अध्यक्ष वा महामंत्री की ओर से सबको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया. पीयूष रावत ने आभार व्यक्त

#### पीलीभीत में भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कुर्सी को लेकर कही ऐसी बात, ठहाके लगाने लगे लोग

पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। पहले दिन उन्होंने बहेड़ी क्षेत्र के गांवों में जनसंवाद किया। दूसरे दिन मंगलवार को ललौरीखेड़ा ब्लॉक के गौनेरा समेत कई गांवों का दौरा किया। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने मंगलवार को ललौरीखेड़ा ब्लॉक के गौनेरा समेत कई गांव में जनसंवाद किया। ग्राम पंचायत गौनेरा में सांसद ने जनसंवाद के दौरान राजनीति पर चुटकी ली। सांसद की बात सुनकर वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे। दरअसल, जनसंवाद में एक समर्थक जमीन पर बैठ हुआ था। उसे देख वरुण बैठ जाइए। वरुण गांधी की बात सुनकर समर्थक उठा और कुर्सी बैठ गया। इस पर सांसद ने कहा कि कुर्सी हमने यहां की तो आपने कुर्सी वहां रख दी। इसका मतबल जीवन में कुर्सी बहुत मुश्किल से मिलती है। सांसद की बात सुनकर लोग हंसने लगे। कार्यक्रम में उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और समाधान कराने का भरोसा दिलाया। सांसद वरुण गांधी ने मंगलवार सुबह अपने अस्थायी निवास शंकर सालवेंट पर जनता

दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। इसके बाद ललौरीखेड़ा ब्लाक के ग्राम हंडा, भानपुर, तेजनगर-महताबनगर, गौनेरी बदी, गौनेरी दान, गौनेरी, सूरजपुर शिवनगर, चांद ड़ाढ़ी, नूरपुर, शाही आदि गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित

## सोमवार को बहेड़ी में

किया था जनसंवाद इससे पूर्व सांसद वरुण गांधी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के बहेड़ी क्षेत्र में पहुंचे थे। यहां भी उन्होंने कई गांवों में जनसंवाद किया। सांसद ने कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को चाट रहा है। हालत ऐसे हैं कि एक बुजुर्ग को अपने बेटे की उम्र के अधिकारी से साहब कहना पड़ता है, जबकि अफसर का वेतन जनता की जेब से जाता है। वरुण गांधी ने कहा कि अगर ईमानदारी और देशभक्ति के लिए आवाज नहीं उठाई तो हमारे देश में हमेशा के लिए लोकतंत्र शांत हो जाएगा। इसलिए जनता को अपने हक की आवाज उठानी है। उन्होंने कहा कि देश मेरा भी है, मैं क्यों डरूं। जनता के हक की आवाज उठाता रहूंगा।

क्यूँ न लिखूँ सच रामचंद्र जायसवाल

सूरजपुर- दतिमा मोड़- शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर द्वारा संभाग स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैडमिंटन हॉल में किया गया। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में छात्र प्रसिद्ध गोस्वामी ने प्रथम स्थान एवं दूसरा स्थान इमांशु तिवारी ने प्राप्त किया। प्रसिद्ध गोस्वामी का मंडलीय ट्रायल चयनित ने प्रदेश स्तर पर खेल हेतू चयन किया है। उन्होंने खेल के क्षेत्र में विकासखंड का माहौल है।

नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना और परिवार का नाम रोशन किया है। आयोजित संभाग स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रसिद्ध गोस्वामी ने विजेता बने साथ ही अब वे प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले भी प्रदेश स्तरीय टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। प्रसिद्ध गोस्वामी एएसआई कुदरगढ़ चौकी प्रभारी संजय गोस्वामी के पुत्र हैं प्रसिद्ध गोस्वामी के इस बेहतर प्रदर्शन से क्षेत्र के लोगों में ख़ुशी

## 02 अक्टूबर तक स्कूल व कालेजों में चलेगा ''नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम''

क्यूँ न लिखूँ सच निशाकांत शर्मा

एटा- एटा जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशों के ऋम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार ने अवगत कराया है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि दिनांक 25 सितम्बर 2023 से 02 अक्टूबर 2023 के मध्य सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर व्यापक रूप से स्कूल व कालेजों में ''नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम''का अयोजन अभियान के रूप में कराया जाये।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र/नगर क्षेत्र को निर्देशित किया है कि आप अपने

एटा- डीएम प्रेमरंजन सिहं एवं

विद्यालयों में दिनांक 25 सितम्बर 2023 से 02 अक्टूबर 2023 तक ''नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम''से सम्बन्धित रैलियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं ई-प्रतिज्ञा अभियानों आदि का व्यापक रूप से आयोजन एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म सहित मीडिया के अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए इसकी सूचना आयोजन की समाप्ति पर आख्या, वीडिओ, फोटो आदि जिला आबकारी अधिकारी, एटा के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे समयान्तर्गत सुचना पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ को प्रेषित

विकास खण्ड के समस्त परिषदीय

#### अवागढ स्टेट में छापामार कार्यवाही के दौरान धरे दो मुन्नाभाई एमबीबीएस

क्यूँ न लिखूँ सच निशाकांत शर्मा

सीएमओ डा. उमेश कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के सिघंम नें अवागढ स्टेट में संचालित झौलाछाप क्लीनिकों पर छापामार कार्यवाही करते हुऐ ऐसा तहलका मचाया कि कई झोलाछाप तो अपना शटर गिराकर नौ दौ ग्यारह हो लिऐ तो एक झोलाछाप पकड में आने के डर से अपना क्लीनिक ही खुला हुई छोडकर फरार हो लिया ! डिप्टी सीएमओ डा. सर्वेश कुमार दिखने में तो छोटे से कद के हैं परन्तु वह बड़ी से बड़ी कार्यवाही करने में पीछे नहीं रहते ! यही कारण रहा कि आज उन्होने उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में अवागढ स्टेट में फर्जी क्लीनिकों पर बडे स्तर पर छापामार कार्यवाही करते हुऐ अवागढ आगरा रोड पर संचालित नवजीवन क्लीनिक एवं फार्मा क्लीनिक को घेरकर उसके



वसुंधरा पर एक झोलाछाप सिघंम के खौफ के चलते अपना क्लीनिक खुला ही छोडकर फरार हो लिया ! अवागढ में छापामार कार्यवाही के दौरान फर्जी क्लीनिक चलाने वाले मुन्नाभाई एमबीबीएस अपने क्लीनिकों पर ताले डालकर बाजार में इधर उधर घूमते नजर आऐ ! मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. उमेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लीनिकों , हॉस्पीटलों व पैथलॉजियों पर कार्यवाही निरन्तर

## मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन

## कराना हुआ दुर्लभ

क्यूँ न लिखूँ सच निशाकांत शर्मा

एटा- जनपद एटा वीरांगना अवंती वाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविधालय एटा में पर्चा बनाबाना कितना दुर्लभ हैं। ये तो लाइन में खड़े मरीज या टीमारदार ही बता सकते हैं। किन्तु खिड़की पर पर्चा बनाने बाले एक ही व्यक्ति द्वारा लाइन में लगे सेकड़ों मरीज महिला एवं पुरुषों की लगी लम्बी लम्बी कतारे ही दर्शाती हैं की पर्चा बनाबाना कितना कठिन



कार्य हैं। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ संदीप कुमार गुप्ता इन समस्यायों का समाधान अविलम्ब अवश्य काराएं।

### ऐतिहासिक मेला जलविहार महोत्सव का विधायिका डॉ रिम आर्य के नेतृत्व में भव्यता के साथ कराया शुभारंभ अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार

क्यूँ न लिखुँ सच नेहा श्रीवास

झाँसी-झाँसी के मऊरानीपुर बुंदेलखंड के प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक प्रांतीय मेला जलविहार महोत्सव 2023 के 155 वां आयोजन का शुभारंभ आज शाम मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी झाँसी जुनैद अहमद एवं विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य ने मेला ग्राउंड पर स्थित सांस्कृतिक मंच पर देव प्रतिमाओं की पूजा



## मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर्यावरण गौ सेवा संकल्म मुस्लिम सम्मेलन



क्यूँ न लिखूँ सच नेहा श्रीवास

झाँसी- मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर्यावरण गौ सेवा संकल्म मुस्लिम सम्मेलन जिला झाँसी मान्यवर ठाकुर राजा रहीस ने आज राजकीय संग्राहालय झाँसी में मुस्लिम समुदाय लोगों को पर्यावरण एवं गो सेवा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी और सकड़ो मुस्लिम समाज लोगों ने संकल्प लिया कि हम पर्यावरण और गाय की सेवा में हमेशा रहेंगे। इस कार्यक्रम में संघर्ष सेवा के

अध्यक्ष संदीप सरावगी और तमाम कार्यकर्ता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मौजूद रहे जिसका आभार संदीप सरावगी और समापन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कानुपर के प्रान्तीय संयोजक सेवा (प्रकोष्ठ) के अब्दुल रब और हाजरा रब ने किया। इस कार्यक्रम में असरफ अंसारी, हमीद खान, रागीर मंसूरी, नादिम क्रैशी सलमा खा रजाला खान, सोनू, सारा मंसूरी, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम और दानिस, अब्दुल्ला, आदि सैकड़ो कार्यकर्ता मौजूद रहे।



#### दोनों अपनी पिछली गलतियों को मानते हुए साथ रहने के लिए राजी हुए

क्यूँ न लिखूँ सच -निशाकांत शर्मा

एटा-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में महिला थाना कैंपस नारी उत्थान केंद्र में आज दिनांक 26.9.2023 को आपसी मतभेद के कारण टुटने की कगार पर एक खड़े परिवार को समझाकर फिर से एक साथ रहने के लिए राजी किया गया विवरण- वादी श्रीमती रेखा पुत्री अजयपाल निवासी नगला फूले थाना सकीट जिला एटा प्रतिवादी मुकेश पुत्र महाराज सिंह निवासी बढैरा थाना कोतवाली देहात जिला एटा एक परिवार को आपसी मतभेद के कारण परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग कर समझाया गया दोनों अपनी पिछली गलतियों को मानते हुए साथ रहने के लिए राजी हुए आज की बैठक में प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मवती उप निरीक्षक मंजीत सिंह काउंसलर राजेंद्र कश्यप दुष्यंत यादव पुलिस स्टाफ कांस्टेबल गौरी पूजा मौजूद रहे

किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी सर्वेश कुमार ने की। भारी भीड़ के बीच नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी सर्वेश कुमार ने बैंड,ढोल, नगाड़े,आकर्षक आतिशबाजी,रमतूला के साथ मुख्य विकास अधिकारी की अगुआनी की। मुख्य अतिथि विकास अधिकारी व विधायक डॉक्टर रिंम आर्य ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। इसके पश्चात अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार ने अतिथियों को पगड़ी पहनाकर माल्यार्पण कर तथा बैज लगाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत व सम्मान किया। मुख्य विकास अधिकारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि ब्रिटिश शासन के समय से चली आ रही है प्राचीन परंपरा का अपना एक अलग ही महत्व

नगर पालिका परिषद द्वारा 155 वर्षों से आयोजित कराए जा रहे इस भव्य मेला अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। हम सभी को अपनी प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा करने का प्रयास हमेशा करना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि मऊरानीपुर का मेला काफी प्राचीन है तो मैं इस मेले का साक्षी बन कर खुशी महसूस कर रहा हूं। बुंदेलखंड में आज भी धार्मिक संस्कृति एवं पुरानी परंपराएं लोग

नाम कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओ ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह का दिल जीत लिया। इस मौके पर जूनियर वर्ग नृत्य प्रतियोगिता में तथा सीनियर नृत्य प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं गायन प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों ने भाग लिया।कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिताओं में विजई हुए प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र,शील्ड एवं नगद राशि प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर पंडाल सहित पूरा मेला ग्राउंड खचाखच भरा हुआ देखने को मिला। कार्यक्रम के संयोजक पार्षद फिरोज खा,श्री मित संगीता पांडे,बद्री प्रसाद सेन,लखन लाल साहू ने अतिथियों को पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर पार्षेद श्री मित संध्या विश्वक मां,धनीराम श्रीवास,जगदीश आर्य,आकाश आर्य,श्री मति रूबी मोदी,प्रतिपाल सिंह भदौरिया,श्री मित फूलवती श्रीवास,गीता देवी खेवरिया,श्री मति फलक साहिबा राइन,श्री मति वंदना अहिरवार,खेमचंद अहिरवार,श्री मति विद्या यादव,अभिषेक पाठक,प्रेम कुमार श्रीवास,ममता राय,मुकेश अग्रवाल,हितेश राजपूत,कमलेश विश्वकर्मा,श्री मित मीना,वरुण आर्य, करन सिंह, आशीष कौशिक, नंदू रावत, सुनील शर्मा, सुभाष सोनी, छगनलाल राजपूत, गौरी शंकर वर्मा, आनंद विश्नोई सहित नगरवासी उपस्थित रहे। बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं।

# गांधी ने कहा कि आप कुर्सी पर लेकर दूसरी जगह रखकर उस पर

## डभौरा,गहिलवार, ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव रोजगार प्रभारी से ग्राम वासी हुए परेशान क्युँ न लिखुँ सच -शिवकुमार मिश्र

रीवा डभौरा ,गहिलवार, ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव रोजगार प्रभारी से ग्राम वासी हुए परेशान सभी कार्य कागजों में सीमित निलंबन के बाद भी रोजगार प्रभारी राजमणि साकेत कर रहे पंचायत का सारा, कार्य भ्रष्टाचार के कई अरोप लग चुके हैं ग्राम पंचायत पर सचिव द्वारा शासकीय राशि का गमन भी किया गया है शासकीय राशि निकालकर नहीं कराया गया कोई कार्य जिसमें ब्लॉक सीईओ से लेकर इंजीनियर एवं सरपंच की भूमिका संदिग्ध गरीब निर्धन आम लोगों को नहीं मिल रहा है योजना का सही लाभ हर एक योजना के नाम पर लंबी वसूली का खेल जारी फर्जी कार्यों के लिए जानी जाती है ग्राम पंचायत कई बार खबर प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुई लेकिन जवा जनपद की लचर व्यवस्था के कारण आज दिनांक तक नहीं हो पाई कोई कार्यवाही जिससे कि आम लोगों का भरोसा पंचायत तंत्र पर उठ रहा है साथ ही लोगों के अंदर काफी गुस्सा कुछ ऐसे भी चर्चा जनमानस में है शासकीय कंप्यूटर का ग्राम पंचायत की आईडी सचिव द्वारा रोजगार प्रभारी को दे रखा है जो सारा कार्य कर

बड़ी ही ताजुब की बात है अगले वर्ष एक भ्रष्टाचार के मामले में रोजगार प्रभारी राजमणि साकेत को जिला पंचायत सीईओ द्वारा निलंबित किया गया था आज दिनांक तक निलंबित है फिर भी सचिव गहिलवार के मिली भगत से , निलंबन के बाद भी सारे कार्य कर रहा है रोजगार प्रभारी जिससे कि आम लोग डर-डर की ठोकर खाने को मजबूर हैं प्रधानमंत्री आवास पीसीसी रोड कूपन में आईडी नाम जुड़वाने के नाम पर हितग्राहियों से सीधे ली जाती है

लंबी रकम उसके बाद ही हो पता है कम शासन की सारी योजनाएं ठप करने में लगे हैं कुछ ऐसे ही तथ कथित , सरपंच सचिव एवं रोजगार प्रभारी इस संबंध में स्थाई लोगों द्वारा जिला पंचायत सीईओ से तुरंत जांच करके दोषी सचिव एवं सरपंच के ऊपर निलंबित की कार्रवाई की मांग की गई है ग्रामीणों द्वारा मामला रीवा जिला के जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत गहिलवार का बताया जा रहा है

# of heart diseases, do you also have this blood group?

क्यूँ न लिखूँ सच

The problem of heart disease, especially heart attack, can be serious, the risk of which is increasing even in young people. According to recent reports, people under the age of 30 are also falling prey to such serious problems, which can also be fatal. Health experts say, all




people should be careful about the risks of heart diseases. Recognize its risks in time and get its treatment. Health experts say, some conditions can increase your risk of heart diseases, your blood group can play important role in this. Health experts say that people with certain blood groups have higher risk of heart disease and heart attack. Although

this is not certain, such people are advised to take special precautions. Let us know what relation some particular blood groups may have with heart diseases? Blood Group and Risk of Heart Diseases It has always been a big question whether people with certain blood groups may have a higher risk of heart diseases? Health experts say, continuous research is being done on this topic. Research has been alerting people about its risks. The team of researchers found that people with blood groups A and B may have a higher risk of developing dangerous blood clots than people with blood group O. Blood clotting conditions are believed to increase the risk of heart disease and heart attack. Lower risk in people with blood group O Previous research has also suggested a possible link between heart disease and the ABO gene, which is present in people with blood group A, B or AB. Preliminary studies have shown that conditions like air pollution can increase the risk of heart attack and related problems in such patients, for which everyone should take special care and vigilance. In a study of more than four lakh people, experts from the American Heart Association reported that people with blood type O had an 8% higher risk of heart attack and a 10% higher risk of heart failure compared to other people. Risk of high blood pressure - Although it is not that everything is bad for people with type A or B blood group, the team of researchers found that people with type O blood group have a higher risk of high blood pressure than people with type A and B blood group. The risk is reduced by 3%. The lead author of the study and your risk of heart disease, although it does indicate caution. We all need to make continuous efforts to prevent heart diseases, by taking precautions you can reduce your risks.

## People with this blood If you are a diabetic patient group have a higher risk then eat these 6 types of foods for breakfast, blood sugar level will remain under control.

Healthy Snacks For Diabetics: Nowadays, due to changing lifestyle and wrong eating habits, people are suffering from many serious diseases. One of these is diabetes. This is an incurable



habits. In this disease, kidneys, eyes, liver, heart and many

other organs become weak. There is no cure for diabetes, but according to health e x p e r t s, blood sugar levels can be normalized by changing diet and lifestyle. Breakfast is most important for diabetic patients. If you are also worried about increasing sugar, then definitely include these things in breakfast. Spinach leaf chaat – Spinach has a low glycemic index. Eating this improves the blood sugar level in the body. Spinach leaf chaat can be a healthy option for diabetic patients. You can eat it as breakfast. You can make it easily at home with handy ingredients. Masoor dal cheela- cheela is very popular in Indian breakfast. Masoor dal cheela can prove beneficial for diabetic patients. The glycemic index of this lentil is low, which is helpful in controlling sugar. Apart from this, this pulse is rich in protein and fiber. Make a paste of this lentil and prepare the solution, add finely chopped capsicum, tomato, onion and salt to it, make this cheela in less oil. Roasted nuts- Nuts are a treasure trove of nutrients. They are rich in unsaturated fat, calcium and many vitamins. If you are a diabetic patient, then eating roasted nuts for breakfast can be beneficial for you. Grilled Paneer-Many types of dishes are made using paneer, but grilled paneer is a good option for sugar patients. You can eat it as a snack. It has a low glycemic index and is also low in carbs, which helps control blood sugar levels. Idli- Idli is a very light and healthy breakfast. It is also advisable to include idli in the weight loss diet. Idli made from millet, ragi or jowar flour is nutritious in diabetes. an expert at the University of Groningen in the Netherlands says blood type does not confirm Bhelpuri- Who would not like to eat delicious Bhelpuri? Sugar patients can also taste this snack. You can make it at home in less time. Bhelpuri is made from puffed rice, onion, tomato, papdi, roasted gram dal, coriander leaves etc.

## Dubai is best for family trip, many activities are free for children

Dubai with Kids World class attractions, beautiful and tall buildings and many fun and adventurous activities make Dubai a perfect family holiday destination. Where everyone from adults to children can enjoy. If you are planning to come here then do not miss exploring some of the places here. Dubai is best for family vacation. What are the best places to visit in Dubai? Apart from sightseeing, there are also many options for food and drinks in Dubai. Dubai means tall buildings, clean beaches, big cars running on the roads and a lot. Dubai is called the city of

dreams. Dubai is known for its unique and the world's tallest 163-storey building Burj at once. There are many options here for is a provision for that too. If you are planning than Dubai, especially with children. Let us children. Dubai Mall- Dubai is a great malls here, but the most famous is Dubai your trip to Dubai with children from Dubai completely, you can come here and enjoy Dubai Mall only. So first visit Burj Khalifa, drinks along with shopping in the mall. tastes of India and abroad. Dubai Aquarium-Aquarium and Underwater Zoo. In this 65,000 marine creatures, which is really birds will be an experience for children. If while roaming around in the mall. Ski Dubai-Despite being in a hot city like Dubai, you



magnificent architecture. The biggest attraction of Dubai is Khalifa. By coming to Dubai you can experience many places desert and beach lovers, but if you like cool places, then there a trip abroad with your family, then nothing can be better know about some such places which are best to explore with shopping destination. There are not just one or two but many Mall. You would hardly have seen such a mall. You can start Mall. Although it takes at least a day to visit this mall many activities at once. The route to Burj Khalifa goes from then visit the aquarium in the mall and then enjoy food and There are many eating places here, where you can enjoy the Another exciting place for children in Dubai Mall is the underwater aquarium and zoo, you get a chance to see about amazing. Seeing and knowing different species of animals and you can't buy a ticket for it, you can still get a good view of it Ski Dubai is one of the most spectacular places in the city. can still enjoy the cold weather. Not only children but also

adults can fully enjoy by coming here. The temperature of Ski Dubai built in Emirates Mall is kept at minus 2 degrees. It is not possible to stay here even for seconds without warm clothes. This place, built on approximately 22,500 square meters, is not only a paradise for adventure lovers, it also has lots of options for children's enjoyment. As the name suggests, Ski Dubai, so do not miss the opportunity to come here and ski. Where there is an opportunity to ski with complete safety and if you do not want to ski, then you can enjoy roaming in the snow park. There is also a show of penguins in the evening, which is a very special attraction here, so do not miss the opportunity to experience it. 3D Blacklight Minigolf – Another activity you can enjoy while coming here with children is 3D Blacklight Minigolf. This experience will also be very different and fun for them. You can also take a shot in this minigolf with the children. So instead of Thailand, Mauritius, Maldives or Bali, plan for Dubai with your children if you want to make their first trip memorable.

## Archana Puran Singh's love story The teaser of 'Animal' will is very interesting, she ran away in the middle of the night and got married for the second time.

Archana Puran Singh is celebrating her 61st birthday today on 26th September. Archana Puran Singh does not need any identity. He has created his own identity by working in





Bollywood films and TV shows. Archana has worked in more than 100 films and TV serials. Along with this, she also serves as a judge in many comedy shows. She was seen as a judge for the first time in 'Comedy Circus'. These days she is seen in 'The Kapil Sharma Show'. In this show, he was signed in place of Navjot Singh Sidhu. Archana made her Bollywood debut in the year 1987 with the film 'Jalwa'. In this film, she was seen opposite actor Naseeruddin Shah. Apart from this, he has done many great films like 'Agneepath', 'Raja Hindustani', 'Pyaar Ka Rog', 'Kuch Kuch Hota Hai', 'Saudagar', 'Shola Aur Shabnam', 'Baaz' and 'Aashiq Awara'. Archana brings life to the character with her brilliant acting. However, Archana was most liked by the audience in the role of Miss Briganza in the film 'Kuch Kuch Hota Hai'. Archana appeared in the TV show 'Wah Kya Scene Hai' in the year 1993. Along with this, she also appeared in an important role in 'Shriman Shrimati', which was liked a lot by the audience. Apart from this, he has also directed shows like 'Jaane Bhi Do Paro' and 'Nehle Pe Dehla'. Archana has also been a good judge. Archana Puran Singh has hosted many shows with her husband Parmeet Sethi. Which includes shows like 'Jhalak Dikhhla Jaa' and 'Kaho Na Yaar Hai'. Apart from her films and shows, Archana was also the subject of much discussion about her personal life. Archana Puran Singh's first marriage was unsuccessful, after which she lost faith in love and marriage. Archana met Parmeet Sethi at an event and both became friends. Their friendship gradually turned into love. Archana and Parmeet got married in the year 1992. Archana and Parmeet eloped in the middle of the night and got married. Archana Singh had told about her marriage that at around 12 o'clock in the night both of them were searching for a Pandit for marriage. Both of them had found a Pandit, but the Pandit said that marriage does not happen like this, there will be an auspicious time for it. Archana and Parmeet then gave them the money and the next morning at 11 o'clock both of them got married.

## be of so many minutes, only a glimpse of Ranbir Kapoor will be seen.

Ranbir Kapoor is in the headlines these days for his film 'Animal'. Fans are also very excited about this film of the actor. Ranbir Kapoor will be seen in a completely different avatar in this film directed by Sandeep Reddy Vanga. His first look poster from the film has been released long ago, in which he is seen in a powerful look. Now the audience is eagerly waiting



for the teaser of this film, which is going to be released this week. Information regarding the time period of the teaser has been revealed. The teaser of the film 'Animal' starring stars like Ranbir Kapoor, Anil Kapoor, Bobby Deol, Trupti Dimri and Rashmika Mandanna is going to be released on September 28. It is being said that the teaser will be of two minutes and 29 seconds. The teaser is going to be action packed. It is also being said that only Ranbir Kapoor will be shown in action scenes in the teaser of the film. The rest of the cast of the film will be seen in the trailer. 'Animal' is said to be a gangster drama film. Ranbir Kapoor will be seen in the lead role in the film. It is being said that the story of the film is based on the strained relationship between father and son. Anil Kapoor will be seen in the role of Ranbir Kapoor's father in the film. Meanwhile, Rashmika Mandanna will be seen opposite Ranbir Kapoor in the film. Earlier this film was scheduled to release on August 11. But, due to the work of the film not being completed, its release was postponed. According to Sandeep Reddy Vanga, 'The reason for not releasing the film on August 11 was its quality. Its post-production work could not be completed. There are seven songs in this film. If seven songs are made in five languages, this number comes to 35. It takes time to make 35 songs with different lyrics and different singers. Let us tell you that 'Animal' will now hit the theaters on December 1. This film will compete with Vicky Kaushal's 'Sam Bahadur' at the box office. Talking about the work front, after 'Animal', Ranbir also has 'Brahmastra: Part 2' in the pipeline.

## Is Pooja Hegde marrying a cricketer? Know what is the whole truth

